



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 3, 2006 (फाल्गुन 6, 1927)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2006 (PHALGUNA 6, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए-60011/8/05-प्रशा.-1/आर.टी.आई.सेल--दिनांक 8 सितम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन और आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिवों के स्तर पर स्थानांतरण तैनाती के परिणामस्वरूप तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशेष विषय वस्तु के बारे में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामोद्घिष्ट किया जाता है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं.	विषय वस्तु
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री वासुमित्रा	संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	23073413	अ.भा.से. में राज्य सेवा अधिकारियों को शामिल करने से सम्बन्धित सभी मामले
2.	ए. के. बिशनदास	संयुक्त सचिव (प.सु.)	23386793	परीक्षा सुधार सम्बन्धी सभी मामले

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. डीपी/पर्स.-1/2006/00027/3/40/2005--श्री वी. परमेश्वरन, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधिवर्षिता पर 31.01.2006 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-03, दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. ए-12012/4/अ.स.नि.(बीज)/2005-प्रशा.-II--इस निदेशालय के श्री हरीश चन्द्र, तकनीकी सहायक (बीजलेख) को अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर 7,500--12,000/- रुपये के वेतनमान में 2 जनवरी, 2006 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 2/34/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री रामपाल सिंह-II को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में स्थानापन्न रूप से दिनांक 01.02.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
विशेष कार्य अधिकारी
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. ए-12012/6/अ.स.नि./2005-प्रशा.-II--इस निदेशालय के श्री एम. जे. अन्धारे, चरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी को अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर 7,500--12,000/- रुपये के वेतनमान में 30 दिसम्बर, 2005 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

सं. 2/14/03-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री एम. ए. खान, को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ रूप से दिनांक 07.02.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
विशेष कार्य अधिकारी
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. ए-12012/13 (उ.नि.) 2004-प्रशा.-II--भारत के राष्ट्रपति इस निदेशालय के श्री ए. के. वर्मा, सहायक निदेशक को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 2 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से उप-निदेशक के पद पर स्थानापन्न आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

यह भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की उनकी डायरी सं. 1334/एम.ओ.एस.(जे)/05 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 द्वारा अनुमोदित है।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-1/09--राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित उप कमाण्डेंटों को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में कमाण्डेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पर पद नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	कमाण्डेंट के रूप में कार्यभार संभालने का दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	एन. के. भारद्वाज	प्रथम आ. वा. बरवाह	07.01.2006 (पूर्वाह्न)
2.	एस. एन. मलहोत्रा	टीपीटी तूतीकोरीन	04.01.2006 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
3.	सर्वश्री हरदीप सिंह	पीटीपी पारादीप	31.12.2005 (अपराह)
4.	एन. मुखोपाध्याय	समूह मुख्यालय, हैदराबाद	03.01.2006 (पूर्वाह)
5.	थोमस मेथ्यू	तृतीय आ. वा. भिलाई	02.01.2006 (अपराह)
6.	ओ. पी. नारायण	सहायक महानिरीक्षक/आयुध बल मुख्यालय, नई दिल्ली	31.12.2005 (अपराह)
7.	सुभाष सिन्हा	आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	31.12.2005 (अपराह)
8.	एच. के. डे	ईसीएल, शीतलपुर	31.12.2005 (अपराह)
9.	एम. एस. गेन	यूसीआईएल, जादूगुडा	15.01.2006 (पूर्वाह)
10.	राजीव पन्त	मुम्बई एयरपोर्ट	02.01.2006 (पूर्वाह)
11.	देवराज सिंह	समूह मुख्यालय, नई दिल्ली	31.12.2005 (पूर्वाह)
12.	सुब्रात्ता बंगा	समूह मुख्यालय, कोचीन	07.01.2006 (पूर्वाह)
13.	पी. एन. ठाकुर	ओएनजीसी, जोरहट	30.12.2005 (अपराह)
14.	अरुण कुमार	सहायक महानिरीक्षक/तकनीकी बल मुख्यालय, नई दिल्ली	30.12.2005 (पूर्वाह)
15.	आर. के. डे	केएसटीपीपी, कोरबा	30.12.2005 (पूर्वाह)
16.	एस. आर. रामास्वामी	सहायक महानिरीक्षक/अग्नि बल मुख्यालय, नई दिल्ली	09.01.2006 (पूर्वाह)
17.	के. गोपीनाथन	आईएसपी, नासिक	31.12.2005 (अपराह)
18.	जयती घोष	समूह मुख्यालय, कोलकाता	31.12.2005 (पूर्वाह)
19.	रविन्द्रा कुमार	पूर्वी खण्ड, पटना	31.12.2005 (पूर्वाह)
20.	एस. एम. शरीफ	आरटीसी, आराकोणम	04.01.2006 (अपराह)
21.	एच. के. दत्ता	त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट	05.01.2006 (पूर्वाह)
22.	बन माली तांडी	डीएचईपी, दुलहस्ती	07.01.2006 (पूर्वाह)
23.	एच. हनुमन्तप्पा	एससीसीएल, सिंगरेनी	03.01.2006 (पूर्वाह)
24.	एस. कुम्बेवर	ओएनजीसी, अंकलेश्वर	19.01.2006 (अपराह)
25.	श्याम लाल	केएचएसटीपीपी, कहलगांव	31.12.2005 (अपराह)
26.	सोमनाथ ओरान	6वीं आ.वा., आराकोणम	18.01.2006 (पूर्वाह)
27.	आर. बी. भट्टनागर	सहायक महानिरीक्षक/उ. ख. मुख्यालय, नई दिल्ली	02.01.2006 (पूर्वाह)
28.	जग मोहन सिंह नेगी	एफबीपी, फरक्का	02.01.2006 (पूर्वाह)
29.	डी. डी. मण्डल	एयरपोर्ट (दक्षिण पश्चिमी) मुख्यालय, मुम्बई	31.12.2005 (पूर्वाह)
30.	ए. के. श्रीवास्तव	सीटीपीएस, चन्द्रपुरा	02.01.2006 (पूर्वाह)
31.	लालजी राम कोल	एससीसीएल, सिंगरेनी	10.01.2006 (पूर्वाह)
32.	राम किशन	तृतीय आ. वा., भिलाई	25.01.2006 (पूर्वाह)
33.	श्रीकान्त किशोर	निशा हैदराबाद	26.01.2006 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-I/10--राष्ट्रपति, सीपीएफएस परीक्षा-2003 के आधार पर सीधे भर्ती हुए निम्नलिखित अधिकारियों (समूह-'क') को नीचे उनके नाम के सामने उल्लिखित इकाइयों में उनके कार्यभार संभालने की तारीख से केओसुब में सहायक कमाण्डेंट के पद पर नियुक्त करते हैं। इन अधिकारियों को उसी तारीख से वेतन व भत्ते प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रत्येक के नाम के सामने दी गई केओसुब यूनिट में तैनात किया जाता है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	संस्थान का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	तैनाती का स्थान
	सर्वश्री			
1.	एल. एच. नगैहते	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	प्रथम आ. वा. बरवाह
2.	एल. के. हाकीप	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	तृतीय आ. वा. भिलाई
3.	आर. एन. रनमुंग	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	चतुर्थ आ. वा. रांची
4.	मिथिलेश कुमार	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (अपराह्न)	चतुर्थ आ. वा. रांची
5.	सुधीर कुमार	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	6वीं आ. वा. आराकोणम
6.	मनीष सिंह	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	6वीं आ. वा. आराकोणम
7.	सुनित शर्मा	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	7वीं आ. वा. जयपुर
8.	अखलेश कुमार शुक्ला	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी देवली-1
9.	धीरज कुमार शुक्ला	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी देवली-2
10.	रघुबीर नारायण	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	आरटीसी मुण्डली
11.	नीलेश कुमार	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	आरटीसी मुण्डली
12.	दिलीप कुमार	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	आरटीसी भिलाई
13.	राम प्रताप सिंह	निशा हैदराबाद	22.09.2005 (अपराह्न)	आरटीसी भिलाई
14.	राजेश	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी आराकोणम
15.	चन्दनशिवे अमोल सी.	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी आराकोणम
16.	यतेन्द्रा नेगी	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	निशा हैदराबाद
17.	एस. जय कुमार	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	निशा हैदराबाद
18.	मनीष कुमार गौतम	निशा हैदराबाद	24.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, दिल्ली
19.	वैभव कुमार डुबे	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, पटना
20.	नागेन्द्र शर्मा	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, अहमदाबाद
21.	जय प्रकाश आजाद	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, कोलकाता
22.	रूची आनन्द	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, चण्डीगढ़
23.	आलोक कुमार	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, इलाहाबाद
24.	तुषार डी. शाखरे	निशा हैदराबाद	23.09.2005 (पूर्वाह्न)	समूह मुख्यालय, हैदराबाद
25.	शैलेन्द्र प्रताप सिंह	निशा हैदराबाद	16.10.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी मुण्डली
26.	विनोद कुमार यादव	निशा हैदराबाद	16.10.2005 (पूर्वाह्न)	आरटीसी आराकोणम
27.	के. एस. चक्रवर्ती	निशा हैदराबाद	31.10.2005 (अपराह्न)	6वीं आ. वा. आराकोणम

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./ (से.या.)/05/कार्मिक-2/40--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री शैय्यद याकूब, सरकारी सेवा से दिनांक 31.01.2006 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने केऔसुब इकाई ओएनजीसी अंकलेश्वर (गुजरात) से वरिष्ठ कमाण्डेन्ट के पद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. ई-32015/(4)/एसके/2005/कार्मिक-1/11--राष्ट्रपति, केऔसुब इकाई बीटीपीएस (डीवीसी) बोकारो के वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, श्री शिव कुमार को त्यागपत्र दिनांक 20.01.2006 के अपराह से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. ए-19011/225/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री एस. सी. तलुजा, अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/314/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री सर्वेश्वर सिंह, वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/377/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री एस. के. सहा, वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. 243ए/ए-32013/3-रसा.(कनि.)/2003/19बी--राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I, को रसायनज्ञ (कनिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री एस. के. मिश्रा	11.11.2005 (पूर्वाह)
2.	डॉ. एच. सी. लोहानी	18.10.2005 (अपराह)
3.	श्री एस. एन. गिरहे	18.10.2005 (अपराह)
4.	डॉ. डी. डी. उपरेती	18.10.2005 (अपराह)
5.	डॉ. (श्रीमती) सरिता सिंह	18.10.2005 (अपराह)
6.	श्री जयराम गुप्ता	18.10.2005 (अपराह)
7.	श्री एस. के. भादुड़ी	18.10.2005 (अपराह)
8.	श्री पी. पुरकायस्थ	18.10.2005 (अपराह)
9.	श्री शांति रंजन पाल	18.10.2005 (अपराह)
10.	डॉ. डी. के. बंदोपाध्याय	19.10.2005 (पूर्वाह)
11.	डॉ. तुषार कांति पाल	18.10.2005 (अपराह)
12.	डॉ. वी. के. श्रीवास्तव	18.10.2005 (अपराह)
13.	श्री देव मुनि सिंह	18.10.2005 (अपराह)
14.	डॉ. आर. पी. शर्मा	18.10.2005 (अपराह)
15.	श्री रफी अहमद	18.10.2005 (अपराह)
16.	डॉ. संजीव कुमार	18.10.2005 (अपराह)
17.	श्री यू. सी. गौतम	18.10.2005 (अपराह)
18.	श्री जीवन लाल मीना	18.10.2005 (अपराह)
19.	श्री ओ. पी. मीना	18.10.2005 (अपराह)
20.	श्रीमती चंद्रिमा रॉय	18.10.2005 (अपराह)
21.	श्री ए. के. श्रीवास्तव	18.10.2005 (अपराह)
22.	श्री स्वपन कु. सेनगुप्ता	18.10.2005 (अपराह)
23.	श्री के. एन. मुखोपाध्याय	18.10.2005 (अपराह)
24.	श्री मुकुंद बी. लोखण्डे	18.10.2005 (अपराह)
25.	श्रीमती स्वपना चक्रवर्ती	14.11.2005 (पूर्वाह)
26.	श्री असीम कु. मुखर्जी	18.10.2005 (अपराह)

1	2	3
27.	डॉ. एस. के. आचार्य	03.11.2005 (पूर्वाह्न)
28.	श्री राधेश्याम मंडल	18.10.2005 (अपराह्न)
29.	श्री कालीचरण	07.11.2005 (पूर्वाह्न)
30.	श्री एच. विजयरजालू	18.10.2005 (अपराह्न)
31.	श्री राजेश्वर घरामी	18.10.2005 (अपराह्न)
32.	श्री चन्द्रकान्त मंडल	18.10.2005 (अपराह्न)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 244ए/ए-32013/3-रसा.(कनि.)/2003/19बी--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित सहायक रसायनज्ञ, श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को रसायनज्ञ (कनिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री एन. एस. नायर	18.10.2005 (अपराह्न)
2.	डॉ. (श्रीमती) बनानी बनर्जी	18.10.2005 (अपराह्न)
3.	श्री एस. एस. बोस	18.10.2005 (अपराह्न)
4.	डॉ. परिमल रॉय चौधुरी	18.10.2005 (अपराह्न)
5.	डॉ. ए. वेंकट रेड्डी	18.10.2005 (अपराह्न)
6.	श्रीमती प्रतिमा तिवारी	18.10.2005 (अपराह्न)
7.	श्री ओम स्वरूप	18.10.2005 (अपराह्न)
8.	श्रीमती चित्तारी सोभा रानी	18.10.2005 (अपराह्न)
9.	श्रीमती एस. एन. जनबंधु	18.10.2005 (अपराह्न)
10.	श्री वाई. सुधाकर	18.10.2005 (अपराह्न)
11.	श्री जी. सी. सैकिया	18.10.2005 (अपराह्न)
12.	श्री वी. के. जोशी	18.10.2005 (अपराह्न)
13.	श्री यू. सी. जैन	18.10.2005 (अपराह्न)
14.	श्री डी. पी. चक्रवर्ती	18.10.2005 (अपराह्न)
15.	श्री दीपक गुरुंग	18.10.2005 (अपराह्न)
16.	डॉ. तपन कुमार सिन्हा	18.10.2005 (अपराह्न)
17.	डॉ. (श्रीमती) वसुधा अत्रे	18.10.2005 (अपराह्न)

1	2	3
18.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि श्रीवास्तव	24.10.2005 (पूर्वाह्न)
19.	श्री प्रणव कुमार मंडल	18.10.2005 (अपराह्न)
20.	श्री बी. डी. लाल	18.10.2005 (अपराह्न)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 245ए/ए-32013/3-निदे.(भूरसा.)/96/19बी, खंड-III--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, श्री जी. एम. एन. शास्त्री, रसायनज्ञ (वरिष्ठ) को निदेशक (भूरसायन) के रूप में इसी विभाग में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर 07.12.2005 (अपराह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. 325सी/ए-32013/4-निदे.(खनि.भौ.)/2001/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, डॉ. अलोक कुमार, खनिज विज्ञानी (वरिष्ठ), भा.भू.स. को निदेशक (खनिज भौतिकी) के पद पर इसी विभाग में तथा रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 08.11.2005 (पूर्वाह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. 23/जी.ई.-I/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होकर सेवा मुक्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. सुश्री एच. एस. नारायणन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति
दिनांक 06.01.2006 (पूर्वाह्न)
2. पी. वी. रवि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति
दिनांक 16.01.2006 (पूर्वाह्न)

सर्वश्री

3. वाई. सी. सत्यवादी अधिवार्षिकी
दिनांक 31.01.2006 (अपराह)
4. टी. अब्राहम अधिवार्षिकी
दिनांक 31.01.2006 (अपराह)
5. बी. डी. त्रिपाठी अधिवार्षिकी
दिनांक 31.01.2006 (अपराह)
6. पी. डी. जाटव अधिवार्षिकी
दिनांक 31.01.2006 (अपराह)

दीपक नारायण

सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

सं. 24जी.ई.-I/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :--

1. सुश्री पी. बी. मुठरेजा अधिवार्षिकी
दिनांक 31.01.2006 (अपराह)
- दीपक नारायण
सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-326--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 30.01.2006 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

1. श्री वाई. बी. शर्मा
2. श्री मस्तान सिंह
3. श्री नज़र शाह
4. श्री एस. डी. आहलूवालिया

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-327--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री गुलशन राय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.02.2006 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय

कोलकाता-1, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. 38--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई और स्थानापन्न के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 02.01.2006 (पूर्वाह) (1 जनवरी 2006 छुट्टी होने के कारण) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	अरुण मोयत्रा	सी आर ए डी
2.	विभांशु शेखर नायक	आई टी आर ए
3.	अरीजीत दत्ता	आर ए ओ/के ओ पी टी
4.	विवेकानन्द झा	आर ए ओ/के ओ पी टी
5.	दीनबंधु पांडा	सी आर ए डी
6.	आर. विनोद कुमार	आर ए ओ/के ओ पी टी
7.	सदानंद नस्कर (एस.सी.)	सी ई आर ए
8.	पार्थ गोपाल भट्टाचार्य	आई टी आर ए
9.	स्वपन कुमार धर	आई टी आर ए
10.	मधुमिता बनर्जी (मुखर्जी)	आई टी आर ए
11.	अतनु चक्रवर्ती	आई टी आर ए
12.	राज कुमार गुप्ता	आई टी आर ए
13.	उत्पल कुमार मजूमदार	आई टी आर ए
14.	रंजन दास	ओ ए डी

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1/10/89-स्था. (वेतन-I) दिनांक 30.08.89 यथा समय संशोधित के अन्तर्गत एफआर 22(I)(ए)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक करीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह/- अपठनीय

उप निदेशक/प्रशासन (केन्द्रीय)

सं. 39--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता निम्न सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई एवं स्थानापन्न के रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान

में 02.01.2006 (पूर्वाह्न) (1 जनवरी 2006 छुट्टी होने के कारण) से या उनके लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
	श्री/श्रीमती	
1.	सुदीप दत्ता	आई टी आर ए
2.	रतन कान्ति बनर्जी	सी आर ए डी
3.	पांचु गोपाल घोष	
4.	प्रशांत चक्रवर्ती	ओ ए डी
5.	राणा बनर्जी	आई टी आर ए

क्रम सं. 3 पर दर्शाए गए अधिकारी कर्तव्य हेतु उप निदेशक (प्रशासन) को रिपोर्ट करेंगे एवं पदस्थापन आदेश जारी किया जा रहा है। क्रम सं. 1, 2, 4 एवं 5 पर दर्शाए गए अधिकारी अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

सभी अधिकारियों को भविष्य में शाखा कार्यालय ए.एन.आई. पोर्ट ब्लेयर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। स्थानान्तरण की नियत तिथि सहित पदस्थापन आदेश बाद में दिया जाएगा।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1/10/89-स्था. (वेतन-I) दिनांक 30.08.89 यथा समय संशोधित के अनुसार एफआर 22(I)(ए)(1) के अन्तर्गत वेतन नियतन हेतु एक महीने के अन्दर विकल्प दे सकते हैं।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में नियत की जाएगी।

ह./- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन (केन्द्रीय)

सं. 40--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई और स्थानापन्न के रूप में रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में 02.01.2006 (पूर्वाह्न) (1 जनवरी 2006 छुट्टी होने के कारण) या उस तिथि से जिस तिथि को वे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	अतनु चटर्जी	आई टी आर ए
2.	अंजनी कुमार	आर ए ओ/के ओ पी टी
3.	शुभ गुहा राय	सी ई आर ए
4.	अनील कुमार सिंह	सी आर ए डी
5.	संदेश कुमार नेगोटिया	डब्ल्यू ए डी

1	2	3
6.	पुलीन दास	आर ए ओ/एफ बी पी
7.	विक्रम तीर्की	आई टी आर ए
8.	पारोमिता राय	सी ई आर ए
9.	सोमनाथ मुखोपाध्याय	आई टी आर ए
10.	डालिया चक्रवर्ती	सी आर ए डी

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1/10/89-स्था. (वेतन-I) दिनांक 30.08.89 यथा समय संशोधित के अन्तर्गत एफआर 22(I)(ए)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन (केन्द्रीय)

दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. 53--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई और स्थानापन्न के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 01.02.2006 (पूर्वाह्न) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	सौमित्र शंकर दे	सी आर ए डी
2.	देबाशीष चक्रवर्ती	गोपनीय, ई डी पी

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1/10/89-स्था. (वेतन-I) दिनांक 30.08.89 यथा समय संशोधित के अन्तर्गत एफआर 22(I)(ए)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन (केन्द्रीय)

सं. 54--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता निम्न सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई एवं स्थानापन्न के रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में 01.02.2006 (पूर्वाह्न) से या उनके लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
	श्री/श्रीमती	
1.	सोनाली राय	ओ ए डी
2.	प्रदीप पाहाड़ी	आर ए ओ/के ओ पी टी
3.	चंपक रॉय	सी ई आर ए

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

सभी अधिकारियों, सिवाय क्रम सं. 2 को भविष्य में शाखा कार्यालय ए.एन.आई. पोर्ट ब्लेयर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। स्थानान्तरण की नियत तिथि सहित पदस्थापन आदेश बाद में दी जाएगी।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1/10/89-स्था. (वेतन-I) दिनांक 30.08.89 यथा समय संशोधित के अनुसार एफआर 22(I)(ए)(1) के अन्तर्गत वेतन नियतन हेतु एक महीने के अन्दर विकल्प दे सकते हैं।

उनकी परस्पर वरीयता बाद में नियत की जाएगी।

ह./- अपठनीय
निदेशक/प्रशासन (केन्द्रीय)

कार्यालय महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. प्रशासन-I/ले.व ह./95-ए--महालेखाकार महोदय ने श्रीमती हमीदा अहमद, लेखा अधिकारी, को स्थापानन रूप में 8,000-275-13,500/- (गुप-बी--राजपत्रित) के वेतनमान में 02.01.2006 से (01.01.2006 रविवार) प्रभावी अथवा जिस तिथि से वह वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करती हैं, को पदोन्नत करने की अनुकम्पा की है।

पदोन्नत अधिकारी शर्तों के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति की तिथि से ले कर एक मास के भीतर अपना वेतन उच्च संवर्ग में नियम करवाने के लिए विकल्प का प्रयोग कर सकती हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (ले. व ह.)

सं. प्रशासन-I/ले.व ह./96-ए--महालेखाकार महोदय ने श्रीमती वीणा शर्मा, अनुभाग अधिकारी, को स्थापानन रूप में 7,450-225-11,500/- (गुप-बी--राजपत्रित) के वेतनमान में 02.01.2006 से

(01.01.2006 रविवार) प्रभावी अथवा जिस तिथि से वह सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करती हैं, को पदोन्नत करने की अनुकम्पा की है।

पदोन्नत अधिकारी शर्तों के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति की तिथि से ले कर एक मास के भीतर अपना वेतन उच्च संवर्ग में नियत करवाने के लिए विकल्प का प्रयोग कर सकती हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (ले. व ह.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. डब्ल्यू.एम.-1/स्थापना/209--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिबीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री पीयूष कु. दे
2.	श्री साधन कु. विश्वास
3.	श्री सुब्रत गोस्वामी

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ.आर. 22(I)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा
उप महालेखाकार (लेखा)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ईएस-I/ए8/एओ/2005-06/248--महालेखाकार (लेखा व हक.) ने निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर दिनांक 31.01.2006 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण

करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :--

क्रम सं.	नाम	कर्मचारी कोड सं.	अभ्युक्तियां
1.	श्री पी. बी. गणेश	19740524	--
2.	श्री के. एन. शामसुंदर	19730107	--
3.	श्री एस. कृष्णमूर्ति-2	19730909	--
4.	श्री ए. जयप्रकाश रंजन	19740534	--

2. मूलभूत नियमावली एफ.आर. 22(1)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ईएस-1/ए8/एओ/2005-06/249--महालेखाकार (लेखा व हक.) ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारी को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 31.01.2006 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :--

क्रम सं.	नाम	कर्मचारी कोड सं.	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती उषा वाई. जे.	19761002	--

2. मूल नियमावली एफ.आर. 22(1)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. ईएस-1/ए8/एओ/2005-06/253--महालेखाकार (लेखा व हक.) ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारी को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 01.02.2006 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :--

क्रम सं.	नाम	कर्मचारी कोड सं.	अभ्युक्ति
1.	श्री ज्ञानपूर्ण के. एम.	19790702	--

2. मूल नियमावली एफ.आर. 22(1)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-66, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. प्रशा.-1/1173(जे.ए.जी.)/1/XIV/2006-07--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों (वेतनमान 12,000-375-16,500/- रुपये) को उक्त सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के प्रवरण ग्रेड (वेतनमान 14,300-400-18,300/- रुपये) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कनिष्ठ प्रशासन के ग्रेड के प्रवरण ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती विनाक्षी गुप्ता	01 जनवरी 2006
2.	श्री धनंजय कुमार	01 जनवरी 2006
3.	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय	01 जनवरी 2006
4.	श्री राजीव शर्मा	01 जनवरी 2006
5.	श्री राजा रेड्डी येमुला	01 जनवरी 2006
6.	श्री शाम देव	01 जनवरी 2006
7.	श्री एम. सी. चक्रवर्ती	01 जनवरी 2006
8.	श्री राकेश कुमार सिंह	01 जनवरी 2006
9.	श्री विपिन कुमार गुप्ता	01 जनवरी 2006
10.	श्री ए. आर. सुले	01 जनवरी 2006
11.	श्री एस. के. चौधरी	01 जनवरी 2006
12.	श्री तालीरीम्बा	01 जनवरी 2006

ए. के. चोपड़ा

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-110012, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 2-1/2005-स्थापना--श्री रमेश चन्द्र, सहायक, एमजीओ शाखा, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को इसके द्वारा विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) में सहायक लेखा अधिकारी, जीसीएस (समूह-ख) (राजपत्रित)(अनुसचिवीय) (6,500-200-10,500/- रुपये) के पद पर सामान्य प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 20 जनवरी, 2006 से साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आनन्द स्वरूप मिश्र

संयुक्त निदेशक (विस्तार)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 14/6(7)/2005-उ एवं ख (ब्रिट)/786--डॉ. अनिल कुमार कोहली, वरिष्ठ महाप्रबन्धक, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) ने दिनांक 31.12.2005 (अपराह्न) से मुख्य कार्यकारी, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. वी. नायर
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. 7/2(5)/2000-एसयूएस/818--गृहपति, श्री संदिप शंकर क्षीरसागर को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबन्ध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में दिनांक 02.01.2006 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में, आगामी आदेशों तक, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. 6(2423)/2005-प्रशा./867--अपर सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री यू. एस. गवारी, सहायक लेखाकार (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 1 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री गवारी दिनांक 01.02.2006 से एक वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे।

पी. पी. माधवनकुट्टी
अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 26 अगस्त 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-39517/891--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रुबिना लीजिंग एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-45699/2324--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रुबिना लीजिंग एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेबुला एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-12473/5998--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नेबुला एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोहन सोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-33450/6012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोहन सोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्लेजर होम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-34739/7829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्लेजर होम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुभव इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-16386--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अनुभव इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूट्री चिकन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-33726/7912--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स न्यूट्री चिकन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्ल्यूबीम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-11602/8367--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ब्ल्यूबीम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रासी वासिमा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-64601/8221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रासी वासिमा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दृष्टि फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-84936/8451--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दृष्टि फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीरू कैरियर्स (एक्ससर्विसमेन) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49591/8663--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीरू कैरियर्स (एक्ससर्विसमेन) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपर लैण्ड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55260/9386--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अपर लैण्ड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्जीनियरिंग कन्सलटैन्सी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जून 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-5291/8799--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्जीनियरिंग कन्सलटैन्सी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेंगो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3288/9404--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेंगो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोबिन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36335/9315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोबिन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाईवे प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36390/9407--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाईवे प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा आनन्द स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-9402/9413--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णा आनन्द स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजधानी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-6799/9421--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजधानी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूमा लीजिंग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-53275/9429--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूमा लीजिंग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और

उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेकोफेब्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-7777/9432--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेकोफेब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. आर. वुड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55123/9435--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. आर. वुड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रादर एयरकन्डीशनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55656/9453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रादर एयरकन्डीशनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और

उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्ट्रल वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-6040/9457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेन्ट्रल वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इयूरोबल स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-6188/9509--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इयूरोबल स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्रवाल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-6364/9466--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अग्रवाल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेटी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10123/9512--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेटी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लास पैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-28790/9484--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स क्लास पैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुबेरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10131/9515--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुबेरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोर्नफैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49778/9527--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोर्नफैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्योटेक इन्सुलेशनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49778/9527--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्योटेक इन्सुलेशनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पटवारीजी चिट फण्ड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10677/9521--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पटवारीजी चिट फण्ड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पायोनीर वेजीटेबल जेनिटिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49541/9530--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पायोनीर वेजीटेबल जेनिटिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल इन्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10576/9524--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोयल इन्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टीटीबी एयरवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49346/9533--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टीटीबी एयरवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार.
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10934/9576--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुमेरू कैमिकल्स प्राइवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेक्स ऑयल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-16599/9595--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेक्स ऑयल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्राइटन, एप्लायनसिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-16598/9598--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रायटन एप्लायनसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंह पाल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-72379/9601--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंह पाल एक्सपोर्ट्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

रिदम लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेडलाईन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-52290/9604--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्जन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रेडलाईन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भारती प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/34175/9619--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स भारती प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आयरन मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-75355/9609--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आयरन मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल. के. फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/65415/9624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एल. के. फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिदम लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/34257/9614--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेक्नोलोजिकल सर्विसेस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/57566/9629--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स

टैक्नोलॉजिकल सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी.एम.जी. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/117737/9634--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स बी.एम.जी. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ.एस.टी. ग्लोबल लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/91178/9639--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स ऐ.एस.टी. ग्लोबल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलिमा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/101183/9644--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त

पर मैसर्स अलिमा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गार्डनर डेनवर इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/22558/9654--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स गार्डनर डेनवर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. एण्ड आर. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/81454/9659--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स डी. एण्ड आर. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बजाज बिस्कुट्स इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/9669--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स बजाज

बिस्कुट्स इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे.डी.एस. कैपिटल एण्ड
सिक्वोरटीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/32650/9678--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स जे. डी.एस. कैपिटल एण्ड सिक्वोरटीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुलमर्ग इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड
इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/8898/9683--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स गुलमर्ग इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेम टूल रूम प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/20307/9688--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स जेम

टूल रूम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शगुन लाबोरेट्रीज़ प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/72967/9689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स शगुन लाबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रगति एडवान्सड हीटिंग
सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/15126/9694--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स प्रगति एडवान्सड हीटिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगला जूट एण्ड फैब्रीक्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/32717/9699--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स

मंगला जूट एण्ड फैबरीक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जम अदमा प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/104960/9704--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स जय अदमा प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरका सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/112091/9731--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अरका सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्नीहोत्री कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/94879/9709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अग्नीहोत्री कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. वागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/103075/9736--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स कृष्णा टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सलोनी मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/9726--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सलोनी मार्केटिंग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पनिंग डोरस इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/108554/9741--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स स्पिनिंग डोरस इन्फोर्कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

बेलवेडरे लेन्ड एण्ड फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूद कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/52166/9746--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सूद कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेवक अपार्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/76643/9757--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सेवक अपार्टमेन्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आस्था फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/85694/9751--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स आस्था फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एविआफोर्ट एंटरप्राइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/50356/9761--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एविआफोर्ट एंटरप्राइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेलवेडरे लेन्ड एण्ड फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/55521/9756--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ई-डिफ्फूज़न डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/105129/9766--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त

पर मैसर्स ई-डिफ्यूज़न डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खुशना एस्टीम एंटरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/81653/9771--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स खुशना एस्टीम एंटरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गैलैक्सी मैरिट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/10326/9776--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स गैलैक्सी मैरिट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीआरएन डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/67539/9781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वीआरएन डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सहायक फोरेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/90362/9781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सहायक फोरेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रियल टूरिज़म इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/73095/9786--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स टूरिज़म इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम्बिएन्स टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/90970/9791--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एम्बिएन्स टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारुल कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/30508/9796--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पारुल कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामनाथ मोंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/36663/9801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रामनाथ मोंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैम एयरकंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/47280/9806--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सैम एयरकंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शर्मा क्लोथियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/7413/9811--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स शर्मा क्लोथियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैमसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/069561/9816--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सैमसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलाएबल सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/90436/9821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रिलाएबल सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरुण कौल प्रोडक्शंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/65800/9826--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अरुण कौल प्रोडक्शंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोना हायर पर्चेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/57570/9831--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मोना हायर पर्चेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीवान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/59970/9836--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स दीवान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नायर एग्रो रीप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/80827/9841--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स नायर एग्रो रीप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पालकॉस इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/17641/9846--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पालकॉस इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिरराज बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/24275/10003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स गिरराज बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/23606/10023--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेटसाईट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/112363/10041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नेटसाईट एजूकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारसोल इलैक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/829884/10046--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पारसोल इलैक्ट्रोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस पी एस अधेसिव टेपस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/92571/10076--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एस पी एस अधेसिव टेपस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिशा हॉस्पिटल्स एण्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/111858/10081--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स दिशा होस्पिटल्स एण्ड हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ढाका बिल्डर्स एण्ड
फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/45726/10086--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एनएडद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स टाका बिजुल्स एण्ड फार्निशियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोरोनेट लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/18471/10091--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स कोरोनेट लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेलकम टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/23998/10096--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वेलकम टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. शंकर कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/55684/10101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एस. शंकर कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनलाईक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/70629/1906--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स इनलाईक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मितीका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/107957/10111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मितीका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाइले कम्प्यूटोनिक्स कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/71836/10116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स नाइले कम्प्यूटोनिक्स कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/26751/10166--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स चटर्जी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काऊलाहीरी कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/93768/10171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स काऊलाहीरी कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैभव रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05/30509--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वैभव रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकुआडक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/43727/10176--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एकुआडक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ सी एस बाइओमेडिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/90563/10191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एफ सी एस बाइओमेडिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कॉमफेक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/90851/10181--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स कॉमफेक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इक्मोनोक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/86675/10196--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इक्मोनोक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बाबजू इम्पेक्स सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-37214/10201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बाबूजी इम्पेक्स सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डी वी एस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-122292/10206--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डी वी एस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स साबा इन्दुशा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/110554/10211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स साबा इन्दुशा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टाक फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-53582--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टाक फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कुशाना ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-40104/10221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कुशाना ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स धनमाया फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-033166/10226--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त

मैसर्स धनमाया फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आई टी सिकिल प्लस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-91258/10231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आई टी सिकिल प्लस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सामकुल सोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-104312/10236--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सामकुल सोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जय गणेश फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/05-33571/10241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त

मैसर्स जय गणेश फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एक्सोन ड्रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/05-034141/10246--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एक्सोन ड्रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नवसन फाइनेन्शियल सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-52730/10251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नवसन फाइनेन्शियल सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स निसदिन फूड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-106956/10256--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स निसदिन फूड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हामिल्टन ईम्पीग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-120555/10261--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स हामिल्टन ईम्पीग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मोनार्क फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-83925/10266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मोनार्क फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एच पी एस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-113720/10271--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एच पी एस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दिल्ली पुलूशन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-81471/10231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दिल्ली पुलूशन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राजधानी फ्लोरिटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-78415/10286--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राजधानी फ्लोरिटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राजधानी इन्डोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-78433/10291--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
य. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू विजन एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-87686--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स न्यू विजन एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वरटैक्स एलीवेटर्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-65366/10336--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वरटैक्स एलीवेटर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुगन चन्द मुरारी लाल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-8188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सुगन चन्द मुरारी लाल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स फिनोना मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टैन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-55285/10346--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स फिनोना मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टैन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ आर सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/28940/10351--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐ आर सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेबी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-16197/10356--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जेबी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवशक्ति सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-72519/10361--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शिवशक्ति सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नुआमस एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-104165/10376--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नुआमस एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐकता फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-39412/10366--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐकता फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैस्टर्न होलीडेज एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-119698/10381--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वैस्टर्न होलीडेज एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंजनि मार्शल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-114055/10371--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अंजनि मार्शल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेटी पेटल्स बोडी केयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-58080/10391--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रेटी पेटल्स बोडी केयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोलब्लीच (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-10235/10396--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सोलब्लीच (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नौमरडा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-82757/10401--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नौमरडा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिट्सन् साइंटिफिक एण्ड सरजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-76226/10406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रिट्सन् साइंटिफिक एण्ड सरजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.के. लर्निंग डाइमेंशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-120984/10411--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ए.के. लर्निंग डाइमेंशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मण्डी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-64006/10416--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मण्डी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ-वन आयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-84927/10421--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐ-वन आयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पेरोग्रोन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-76543/10426--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पेरोग्रोन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा कारगो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-96181/10431--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मेगा कारगो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कारवान बिजनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-19132/10436--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कारवान बिजनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फाल्कन डिस्ट्रीलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-62906/10441--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स फाल्कन डिस्ट्रीलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. ऐ. वी. ऐक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-112179/10446--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एस. ऐ. वी. ऐक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ. सी. एस. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-99517/10451--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एफ. सी. एस. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ.सी.एस. जेनिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/90520/10456--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एफ.सी.एस. जेनिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरिसिस आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/85687/10461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अरिसिस आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेलिमेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/30660/10471--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टेलिमेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बुकसेल (इण्डिया) कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-56481/10476--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

6-476GI/2005

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बुकसेल (इण्डिया) कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग टॉप मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/10372/10481--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बिग टॉप मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूजहाऊंड प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55-110024/10486--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स न्यूजहाऊंड प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चावलास चिक-इन-रैस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/63699/10491--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स चावलास चिक-इन-रैस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेसन लिंक्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यंग ब्लड फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/75441/10496--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स यंग ब्लड फार्मान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रीनेत्रा क्रेडिट्स हायर एण्ड
लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल.आर.एम. इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/90949/10501--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एल. आर.एम. इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/05-031/1460/10521--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स त्रीनेत्रा क्रेडिट्स हायर एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. के. फरकोन इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/29449/10506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आर. के. फरकोन इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित हो जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्प्रींट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/74802/10526--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सिप्रंट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विषटित हो जाएगी।

त्रिष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई. पी. म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/125648/10894--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आई. पी. म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हुवरिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/39694/10899--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स हुवरिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अजय डाईकैम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/7991/10904--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अजय डाईकैम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गजल पार्क आऊटडोर कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/47797/10909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स गजल पार्क आऊटडोर कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज राजेश्वरी फिनलीज लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/69000/10914--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राज राजेश्वरी फिनलीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. के. फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/111829/10919--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डी. के. फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेकास्टर सॉफ्टवेयर सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/31647/10924--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मेकास्टर सॉफ्टवेयर सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विमोट पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/36589/10939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स विमोट पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रेहनसन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/20333/10929--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स त्रेहनसन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्लैक कट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/77353/10944--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ब्लैक कट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रजवासी फिनकेप सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/83678/10934--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ब्रजवासी फिनकेप सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भगवान दास रामेश्वर दयाल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/95885/10949--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स भगवान दास रामेश्वर दयाल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एण्ड टी. डीज़ल कंट्रोलस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/073131/10954--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी. एण्ड टी. डीज़ल कंट्रोलस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फरोस्ट एयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 560(3)एस.ई.एस./2005/55/088169/10959--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स फरोस्ट एयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पल्स टाएज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 14 फरवरी 2006

सं. एल. सी./560(3)/14029/5221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पल्स टाएज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

कै. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यारियाँ मल्टीलिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. आर. ओ. सी./560/17658/180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स यारियाँ मल्टीलिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोहीनूर एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. आर. ओ. सी./560/2417/194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कोहीनूर एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. एलसी/560/(5)/2084--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3764	मैसर्स मीको मोटर एण्ड जनरल फाइनेन्स कम्पनी प्रा. लि.

1	2	3
2.	5531	मैसर्स पुन्ज स्टार होटल्स प्रा. लि.
3.	24737	मैसर्स बी.एन. यादव आटो मार्केटिंग प्रा. लि.
4.	12397	मैसर्स सहारनपुर सीमेन्ट वर्क्स लि.
5.	23926	मैसर्स प्रोफेशनल मिनरल वाटर प्रा. लि.
6.	8707	मैसर्स जे.आर.पी टेक्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
7.	26224	मैसर्स कैलाश इंशोरेन्स एजेन्सी प्रा. लि.
8.	7242	मैसर्स संगल एक्सट्रूड्स प्रा. लि.
9.	12838	मैसर्स के.सी.आर. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
10.	22452	मैसर्स एम.एम.बी. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
11.	20580	मैसर्स विन्डसोर स्कूल्स प्रा. लि.
12.	23045	मैसर्स एम.एम.बी. हाऊसिंग एण्ड रीयल इस्टेट्स लि.
13.	13950	मैसर्स ग्लोसाइन इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
14.	19982	मैसर्स मिडास फिनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लि.
15.	8531	मैसर्स वाराणसी कन्जुमर सर्विसेस प्रा. लि.
16.	16549	मैसर्स अनजनया फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
17.	15064	मैसर्स गरलोन फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्रा. लि.
18.	14542	मैसर्स रतन प्रॉटिंग वर्क्स प्रा. लि.
19.	27941	मैसर्स दिलीप सेल्स प्रा. लि.
20.	26557	मैसर्स ओरेनेट चिट फण्ड प्रा. लि.
21.	27985	मैसर्स पावरबूम मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.
22.	14959	मैसर्स पशुपति एल्यूमि प्रा. लि.
23.	7465	मैसर्स कुसुम पोलीकोट्स प्रा. लि.
24.	10349	मैसर्स इटरनल लेदर्स प्रा. लि.
25.	9710	मैसर्स नीलाम्बुज वायर्स प्रा. लि.
26.	27873	मैसर्स सी.डी.एफ. लैब्स प्रा. लि.
27.	7953	मैसर्स होटल्स जयसीयाराम प्रा. लि.
28.	14924	मैसर्स मोन्स होटल्स प्रा. लि.
29.	19070	मैसर्स गौरी बिल्डर्स प्रा. लि.
30.	24095	मैसर्स टैडीज सेल्स प्रा. लि.
31.	19019	मैसर्स स्वदेशी आरगेनिक्स प्रा. लि.

1	2	3
32.	13595	मैसर्स आर. ए. इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
33.	25308	मैसर्स चन्दू फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
34.	23204	मैसर्स कौल सुचकेता प्रा. लि.
35.	17963	मैसर्स ए. बी. जे. पेपर्स प्रा. लि.
36.	10592	मैसर्स माइट कम्प्यूट सर्विसेज प्रा. लि.
37.	20196	मैसर्स भारतीय ग्रामीण कृषि अवाम विनायकी विकास लि.
38.	14966	मैसर्स सुप्रभा हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
39.	10602	मैसर्स बुद्धा फेरो एलोएज लि.
40.	17583	मैसर्स जील शेयर्स एण्ड स्टॉक प्रा. लि.
41.	13806	मैसर्स शिवम लामी कोट्स प्रा. लि.
42.	8422	मैसर्स यूनाइटेड रीयल इस्टेट फाइनेन्स लि.
43.	7485	मैसर्स एसटोक्स इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
44.	21926	मैसर्स आरबिट एग्रीटेक लि.
45.	7605	मैसर्स आगरा मेटालर्जिकल इन्जीनियर्स प्रा. लि.
46.	21970	मैसर्स चन्द्रपीड इन्फोटेक प्रा. लि.
47.	11097	मैसर्स मंगलम मोल्डर्स प्रा. लि.
48.	23964	मैसर्स गियन डायग्नोस्टिक सेंटर एण्ड ब्लड बैंक प्रा. लि.
49.	17629	मैसर्स बायोसन फार्मूलेशन्स प्रा. लि.
50.	19303	मैसर्स अम्बालिका हायर परचेज एण्ड लीजिंग प्रा. लि.
51.	11113	मैसर्स क्लासिक एग्रीचेम प्रा. लि.
52.	17635	मैसर्स पी.जी. इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग कम्पनी प्रा. लि.
53.	16014	मैसर्स सुप्रभा म्यूचुअल बेनीफिट लि.
54.	20317	मैसर्स देना फाइनेन्स एण्ड लीजिंग लि.
55.	25615	मैसर्स मितल स्टॉक ब्रोकर्स एण्ड सिक्योरिटीज प्रा. लि.
56.	25609	मैसर्स एच.सी. बिल्डर्स प्रा. लि.
57.	14091	मैसर्स शशांक क्रेडिट्स प्रा. लि.
58.	13459	मैसर्स मास्टर टेक्स प्रोसेस हाऊस प्रा. लि.
59.	4892	मैसर्स फूलशन एग्री प्रा. लि.

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
यू.पी. एण्ड उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. एसईएस-2005/आरओसी (गुज.)/2125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इस नोटिस की प्रकाशन की तारीख से रजिस्टर से रद्द किया जाता है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	कम्पनियों के नाम	रजिस्टर्ड सं.
1	2	3
1.	मैसर्स मणीलाल जोईताराम प्रा. लि.	04-3936
2.	मैसर्स श्रेपक डायकेम प्रा. लि.	04-5162
3.	मैसर्स रश्मि फार्मिंग एण्ड केटल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-5549
4.	मैसर्स सवानी एन्टरप्राइजेज (एन्जी.) प्रा. लि.	04-5783
5.	मैसर्स एकमे टेकनो सर्विसेज प्रा. लि.	04-6253
6.	मैसर्स मेनेजमेन्ट एनालिटिक्स प्रा. लि.	04-6794
7.	मैसर्स नरेन्द्र देसाई इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.	04-7338
8.	मैसर्स सनी बिल्डर्स प्रा. लि.	04-7733
9.	मैसर्स युनि रॉयल लेबोरेटरीज प्रा. लि.	04-7811
10.	मैसर्स पुनीत मशीन्स प्रा. लि.	04-7984
11.	मैसर्स निशीत टेक्सटाईल्स प्रा. लि.	04-8018
12.	मैसर्स स्पेक्ट्रम्स युनीटॉप प्रा. लि.	04-9130
13.	मैसर्स कोलमन कन्सलटेन्ट प्रा. लि.	04-9236
14.	मैसर्स वी.एच.एच इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेन्ट्स प्रा. लि.	04-9513
15.	मैसर्स बनकुरा फूड्स प्रा. लि.	04-9823
16.	मैसर्स अदरी इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.	04-10270
17.	मैसर्स बजरंग कोल एश कम्पनी प्रा. लि.	04-10653
18.	मैसर्स न्यू टेक पेपर ट्रूब्स एण्ड केन्स प्रा. लि.	04-10969
19.	मैसर्स एटलस पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि.	04-11834
20.	मैसर्स मारुती फिल्टर्स प्रा. लि.	04-12535
21.	मैसर्स चैनल लीजींग एण्ड फायनेन्स प्रा. लि.	04-12822
22.	मैसर्स जैन शेयर एड्स प्रा. लि.	04-13717
23.	मैसर्स बही एस्टेट्स प्रा. लि.	04-14823
24.	मैसर्स इन्द्रा केम प्रा. लि.	04-15222
25.	मैसर्स दीमका इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	04-15238

1	2	3
26.	मैसर्स कर्मा विपक लीजींग कम्पनी लि.	04-15588
27.	मैसर्स मरडिया ट्रेडिंग लि.	04-15968
28.	मैसर्स नूपुर टेक्स रब प्रा. लि.	04-16120
29.	मैसर्स पाम मार्केटिंग प्रा. लि.	04-16175
30.	मैसर्स माइक्रो स्टेमिंग एण्ड फोरजिंग प्रा. लि.	04-16415
31.	मैसर्स छतरिया स्टील्स प्रा. लि.	04-16529
32.	मैसर्स जिल फायनेन्सीयल कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	04-16925
33.	मैसर्स हाइप्रो इन्स्युलेशन प्रा. लि.	04-16948
34.	मैसर्स टेकनो फ्युल प्रा. लि.	04-17003
35.	मैसर्स चक्कू कोम्प्युनिकेशन प्रा. लि.	04-17107
36.	मैसर्स मारुती सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रा. लि.	04-17977
37.	मैसर्स योगेश्वर आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	04-18406
38.	मैसर्स लिम्बा सेल्स प्रा. लि.	04-18482
39.	मैसर्स उत्तम सिन्थोरिटी सर्विसेज प्रा. लि.	04-33261
40.	मैसर्स एकवान्स ओयल एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.	04-19173
41.	मैसर्स कोमल फार्मास्युटिकल्स लि.	04-19255
42.	मैसर्स ग्रीन कोम्पलेक्स प्रा. लि.	04-19468
43.	मैसर्स विनायक सिल्क मिल्स प्रा. लि.	04-19748
44.	मैसर्स धारा एग्रो फार्म प्रा. लि.	04-19812
45.	मैसर्स दातार इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.	04-19864
46.	मैसर्स होरिओमदादा बिजनेस हाउस प्रा. लि.	04-20127
47.	मैसर्स श्री दत्त कलर कं. प्रा. लि.	04-20163
48.	मैसर्स बसिल रेमीडीज प्रा. लि.	04-20516
49.	मैसर्स शाह एण्ड महादेविया फायनेन्सीयल सर्विसेस प्रा. लि.	04-21219
50.	मैसर्स यश रिसोर्स रेमीडीज प्रा. लि.	04-25172
51.	मैसर्स स्पेस फिनस्टॉक प्रा. लि.	04-30227
52.	मैसर्स अदपुर पैलेस होटल प्रा. लि.	04-30239
53.	मैसर्स कसार इन्फोटेक प्रा. लि.	04-30527
54.	मैसर्स प्रीशियस नाइटवेयर प्रा. लि.	04-30664
55.	मैसर्स प्रभात फीनवेस्ट लि.	04-31315
56.	मैसर्स नाईस इन्फोटेक प्रा. लि.	04-31670
57.	मैसर्स राम राज्य डेवलपर्स प्रा. लि.	04-31880
58.	मैसर्स गांधी डाई कास्टिंग प्रा. लि.	04-32022
59.	मैसर्स श्रीमद प्रोपर्टीज प्रा. लि.	04-32582

1	2	3
60.	मैसर्स अर्बुदा मोटेल्स प्रा. लि.	04-33873
61.	मैसर्स हीरा फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-34377
62.	मैसर्स के. जी. दवे वाटर युटीलीटीज प्रा. लि.	04-34482
63.	मैसर्स एसेन्ट जेरोग्राफीक्स सर्विसेज प्रा. लि.	04-35434
64.	मैसर्स ए. एम. एक्जिम (इन्डिया) प्रा. लि.	04-36254
65.	मैसर्स सोहम आयरन एण्ड स्टील प्रा. लि.	04-36366
66.	मैसर्स पदमो सेवीयर ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	04-36528
67.	मैसर्स गुजरात कोल्ड इन प्रा. लि.	04-37682
68.	मैसर्स पुर्वी मर्कन्टाईल प्रा. लि.	04-38077
69.	मैसर्स ध्वनी कार्गो एण्ड कोरियर प्रा. लि.	04-38224
70.	मैसर्स एक्सल कम्प्युटेड फॉर्मस एण्ड ग्राफीक्स प्रा. लि.	04-39440
71.	मैसर्स टुरबो कास्टिंग प्रा. लि.	04-39694
72.	मैसर्स गोविंद कन्डक्टर्स प्रा. लि.	04-20074
73.	मैसर्स एस विजय रीयल एस्टेट प्रा. लि.	04-20128
74.	मैसर्स एस्ट्रेल पोलीमर्स प्रा. लि.	04-33644
75.	मैसर्स बद्दी बायोकेम प्रा. लि.	04-20822
76.	मैसर्स राजेश्वरी शिप ब्रेकिंग प्रा. लि.	04-21148
77.	मैसर्स कर्णावती डायस्टफ प्रा. लि.	04-21020
78.	मैसर्स तुकाराम लीजींग एण्ड फायनेन्स प्रा. लि.	04-22037
79.	मैसर्स वासुपुज्या फीनस्टोक प्रा. लि.	04-22048
80.	मैसर्स सत्रुंजय इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.	04-22264
81.	मैसर्स अभियोग टैक्सटाइल्स प्रा. लि.	04-43295
82.	मैसर्स आरगस टैक्सटाइल्स प्रा. लि.	04-43293
83.	मैसर्स बरटन फैब्रिक्स प्रा. लि.	04-43377
84.	मैसर्स नीआगरा फैब्रिक्स प्रा. लि.	04-43294
85.	मैसर्स सीटी कोरियर्स प्रा. लि.	04-15385
86.	मैसर्स नमामी होल्डिंग्स प्रा. लि.	04-05174
87.	मैसर्स मोना सिन्थेटिक्स प्रा. लि.	04-18081
88.	मैसर्स पंचगुली केपलीज लि.	04-22602
89.	मैसर्स कीनहरी स्टोक होल्डिंग प्रा. लि.	04-16642
90.	मैसर्स अस्तित्वा होल्डिंग्स प्रा. लि.	04-05175

1	2	3
91.	मैसर्स अताकु होल्डिंग्स प्रा. लि.	04-4896
92.	मैसर्स निशीव एन्जीनीयरींग प्रा. लि.	04-16815
93.	मैसर्स उरबीका स्टोक होल्डिंग्स प्रा. लि.	04-16641
94.	मैसर्स मेघदुत ओर्गेनीक्स प्रा. लि.	04-22773
95.	मैसर्स एल्पीक सीक्युरीटीज प्रा. लि.	04-22849
96.	मैसर्स असरावाला टेक्सचराजर्स प्रा. लि.	04-15844
97.	मैसर्स मारुती कोमर्शियल सर्विस प्रा. लि.	04-23082
98.	मैसर्स एस्टीम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	04-23084
99.	मैसर्स स्टायलस फायनेन्स प्रा. लि.	04-23582
100.	मैसर्स अर्बुदा होल्डिंग एण्ड फायनेन्स प्रा. लि.	04-23695
101.	मैसर्स शाईन्हाउसिंग डेवलपमेन्ट लि.	04-20316
102.	मैसर्स प्रयास इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.	04-24316
103.	मैसर्स धोलू वेनचरस प्रा. लि.	04-24444
104.	मैसर्स रेडीयन्ट इलेक्ट्रीकल प्रा. लि.	04-24644
105.	मैसर्स मोटेल मेघावी प्रा. लि.	04-25341
106.	मैसर्स जीवननिर्वाह फार्मस् प्रा. लि.	04-25943
107.	मैसर्स चीप-एन-डील होल्डिंग्स प्रा. लि.	04-26169
108.	मैसर्स परसरामपुरीया सीनकोट प्रा. लि.	04-26284
109.	मैसर्स मीराज स्टोक सीक्योरा प्रा. लि.	04-26750
110.	मैसर्स बायोस एग्रीटेक प्रा. लि.	04-26875
111.	मैसर्स रीयल स्टार रीसोर्ट लि.	04-26898
112.	मैसर्स सिधेश फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.	04-27146
113.	मैसर्स त्रीपदा एग्रो एण्ड डेरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-27226
114.	मैसर्स मकरपुरा इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रीकल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-27214
115.	मैसर्स अक्रोपन फायनेन्स लि.	04-27505
116.	मैसर्स अंकुज फार्मा केम प्रा. लि.	04-28557
117.	मैसर्स श्री अंबीका सर्जिकल मेडीकल डीम्पोजेबल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-28631
118.	मैसर्स मोतीराम फायनेन्सीयल सर्विसेज प्रा. लि.	04-28721
119.	मैसर्स मोहिनी करीपा इरेक्टरस प्रा. लि.	04-8426
120.	मैसर्स विनल फिनलीज लि.	04-28893
121.	मैसर्स पान इन्डिया सीक्युरीटीज प्रा. लि.	04-28932

1	2	3	1	2	3
122.	मैसर्स सिटी लीन्क फीनसेक लि.	04-29046	154.	मैसर्स लक्ष्मी रोटे प्रीन्ट प्रा. लि.	04-07864
123.	मैसर्स जेम्स बौन्ड ज्वेल्स प्रा. लि.	04-40230	155.	मैसर्स सौराष्ट्र कोमोडीटीसीज एसोशीयसन लि.	04-19459
124.	मैसर्स ग्यानी कोम्युनीकेशन्स प्रा. लि.	04-40799	156.	मैसर्स वितल लिंक बिजनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स कन्सलटेन्सी प्रा. लि.	04-12519
125.	मैसर्स थन्डर नेटवर्क प्रा. लि.	04-41971	157.	मैसर्स प्राइम सीक्योरिटी सिस्टम प्रा. लि.	04-15350
126.	मैसर्स रीपल्स रीसोर्ट्स प्रा. लि.	04-42366	158.	मैसर्स प्रुडेन्ट फीनकोम सर्विसेज प्रा. लि.	04-19791
127.	मैसर्स स्पार्कल स्टोन टेक प्रा. लि.	04-42788	159.	मैसर्स आशीर्वाद नर्सिंग होम प्रा. लि.	04-18839
128.	मैसर्स गोड़वनी प्लास्टिक प्रा. लि.	04-43923	160.	मैसर्स प्राइम सीलीकोन प्रा. लि.	04-20126
129.	मैसर्स श्री सप्तगीरेश्वर केमीकल्स प्रा. लि.	04-43931	161.	मैसर्स नन्दकेतन फीनस्टॉक प्रा. लि.	04-21654
130.	मैसर्स क्रीस्टल फोर्ज प्रा. लि.	04-43889	162.	मैसर्स लिपी फार्मा केम्स लि.	04-21396
131.	मैसर्स नेक्सटस्टेप टेकनोलोजी प्रा. लि.	04-44089	163.	मैसर्स श्री धनजी होलिडिंग्स प्रा. लि.	04-21288
132.	मैसर्स पान इन्डिया फीजलीज प्रा. लि.	04-29002	164.	मैसर्स जामनगर लेन्ड डवलपर्स प्रा. लि.	04-21059
133.	मैसर्स टी एण्ड टी नेटवर्क्स लि.	04-24520	165.	मैसर्स श्री करूपा टैक्सटायल्स प्रा. लि.	04-21410
134.	मैसर्स ब्रीलीयन्ट जेम्स एक्जिम प्रा. लि.	04-32642	166.	मैसर्स वस्तुपाल सीक्युरिटीज प्रा. लि.	04-26924
135.	मैसर्स विशाल सीमेन्ट्स प्रा. लि.	04-6625	167.	मैसर्स अक्षर ट्यूब वेल्ड प्रा. लि.	04-31646
136.	मैसर्स अनीस कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	04-26812	168.	मैसर्स डगली इन्टरस्टेट कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	04-27765
137.	मैसर्स डीकोन्स सीन्थेटीक्स प्रा. लि.	04-14935	169.	मैसर्स गुजरात एक्वा गोल्ड लि.	04-27140
138.	मैसर्स ए.के. पेट्रोलियम्स लि.	04-26631	170.	मैसर्स विनल पोलिटेक्स लि.	04-28543
139.	मैसर्स एडोर्न प्लास्ट प्रा. लि.	04-30110	171.	मैसर्स एसेक्रेन्स एण्ड एक्वेटर्स प्रा. लि.	04-29200
140.	मैसर्स श्याम सीने एन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	04-35367	172.	मैसर्स मोरसन्स इम्पेक्स प्रा. लि.	04-31629
141.	मैसर्स विशाल इन्टरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	04-36001	173.	मैसर्स गुजरात हाईड्रोकार्बन प्रा. लि.	04-31657
142.	मैसर्स बीम इन्फोसोफ्ट प्रा. लि.	04-38120	174.	मैसर्स त्रीमुर्ती इन्डस्ट्रीयल कोर्टिंग प्रा. लि.	04-32331
143.	मैसर्स फ्लुके मार्केटिंग प्रा. लि.	04-38144	175.	मैसर्स मसरानी लेबोरेटरीज प्रा. लि.	04-32530
144.	मैसर्स एलक्वेमी टेकनोलोजीज प्रा. लि.	04-38251	176.	मैसर्स हेली हार्डवेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	04-40641
145.	मैसर्स एटको पेट्रोलियम लि.	04-37247	177.	मैसर्स एक्सेनीया मार्केटिंग प्रा. लि.	04-40142
146.	मैसर्स विशाल केम्स प्रा. लि.	04-37091	178.	मैसर्स वास्को मार्केटिंग प्रा. लि.	04-40536
147.	मैसर्स इन्डीजिनियस इन्फोटेक (इन्डीया) प्रा. लि.	04-37826	179.	मैसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	04-41062
148.	मैसर्स सफोरे कुलिंग सीस्टम्स प्रा. लि.	04-37131	180.	मैसर्स रिश्के रीयलीटी प्रा. लि.	04-30440
149.	मैसर्स शीलचार वोल्टेक एन्जीनीयरिंग प्रा. लि.	04-35311	181.	मैसर्स आनन्द एन्टीबायोटीक्स प्रा. लि.	04-30104
150.	मैसर्स कोठारी पीगमेन्ट्स प्रा. लि.	04-34476	182.	मैसर्स पीपल प्रोपर्टीज प्रा. लि.	04-31546
151.	मैसर्स गरीमा फायनेन्शियल सर्विसेज प्रा. लि.	04-26238	183.	मैसर्स पारीख रियल्टी प्रा. लि.	04-31196
152.	मैसर्स द फिल्म डेवलपमेन्ट कोर्पोरेशन ऑफ गुजरात लि.	04-06730	184.	मैसर्स दहेज पेट्रोकेम ट्रेडिंग प्रा. लि.	04-31626
153.	मैसर्स हरीतुराज इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.	04-07288	185.	मैसर्स मुकेश टीम्बर्स प्रा. लि.	04-33647

1	2	3
186.	मैसर्स इन्टरटेक सोफ्टवेयर्स प्रा. लि.	04-36474
187.	मैसर्स पारेख नेटवर्क सोलसिअन्स प्रा. लि.	04-36864
188.	मैसर्स सीनेटा नेटवर्क्स (इन्डोया) प्रा. लि.	04-39205
189.	मैसर्स जलसागर होटेल्स प्रा. लि.	04-39461
190.	मैसर्स देवी जयश्री प्रोकोन प्रा. लि.	04-28181
191.	मैसर्स कल्पविन वेयरहाउसींग प्रा. लि.	04-1611
192.	मैसर्स ख्याती लेन्ड डेवलपमेन्ट प्रा. लि.	04-15698

एन. के. भोला
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री बालाजी फेबरिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. कं. सं./560(3)svk/एस.सं./2005-2006/ROCB/8504--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री बालाजी फेबरिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि.सि.दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कर्नाटक ऐगरो प्रोटीन्स लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. कं. सं./560(3)svk/एस.सं./2005-2006/ROCB/2782--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कर्नाटक ऐगरो प्रोटीन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि.सि.दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सेलवेल टेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. कं. सं./560(3)svk/एस.सं./2005-2006/ROCB/9283--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सेलवेल टेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि.सि.दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स धारा पोलिमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. कं. सं./560(3)svk/एस.सं./2005-2006/ROCB/7297--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धारा पोलिमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि.सि.दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इन्डू डेकोर (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. कं. सं./560(3)svk/एस.सं./2005-2006/ROCB/13284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्डू डेकोर (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि.सि.दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 560(3)/एस.एम./777--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	8662	मैसर्स बिन मलिक इन्डस्ट्रीयल एन्ड ट्रेडिंग कम्पनी (केरला) प्राईवेट लिमिटेड
2.	8707	मैसर्स एरिक एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	8716	मैसर्स न्यू टेक फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
4.	9017	मैसर्स हैरेंज कार्ड्स एन्ड ट्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	9091	मैसर्स सौथ इन्डियन कंपिटल प्राईवेट लिमिटेड
6.	9095	मैसर्स ट्रान्स वेल्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	9170	मैसर्स मनतला कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	9457	मैसर्स सहारा होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
9.	9575	मैसर्स जी.एस.एस. ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
10.	9635	मैसर्स पोककन्चेरी आयुर्वेदिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	9654	मैसर्स ओमहर एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
12.	9702	मैसर्स लेनोरा चिट्स एन्ड फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	9818	मैसर्स प्रोविन्ड कुरीस एन्ड जेनरल फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	9885	मैसर्स जे.बी.एस. क्रंब प्राईवेट लिमिटेड
15.	9937	मैसर्स आटो पारक प्राईवेट लिमिटेड
16.	9981	मैसर्स सहया सुर्या आग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	10062	मैसर्स मूनार गारडन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	10091	मैसर्स एम.सी.फील्ड मार्केटिंग एन्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
19.	10176	मैसर्स कैतारी कारलकडा एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	10185	मैसर्स श्री हरी कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	10294	मैसर्स बून इन्डिया आग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
22.	10319	मैसर्स चामतिल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

(1)	(2)	(3)
23.	10327	मैसर्स रोयल कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	10328	मैसर्स विजयास गोल्ड-आर्ट प्राईवेट लिमिटेड
25.	10333	मैसर्स सुन्दनराज कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	10383	मैसर्स फिफि ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	10388	मैसर्स हैलान्डेरस सेक्सूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
28.	10394	मैसर्स कषेत्रा फौनान्शियल सर्वीस प्राईवेट लिमिटेड
29.	10423	मैसर्स उदयज्योती चिट्स एन्ड फैनान्स (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
30.	10459	मैसर्स निरमाल्यम कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
31.	10477	मैसर्स ग्रीन लान्ड असोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	10481	मैसर्स श्रीमुत्तप्पन चिट्स एन्ड फैनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	10519	मैसर्स धनवन्थरी चिकित्सालय एन्ड हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	10542	मैसर्स वराहा चिट्स एन्ड फैनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	10553	मैसर्स मारवा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	10558	मैसर्स इस्वरी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	10559	मैसर्स प्राइम मोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	10562	मैसर्स आस्ट्रा स्पैसेस एन्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	10570	मैसर्स उन्नति चिट्स एन्ड फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	10578	मैसर्स सी वेब्स फैनान्स एन्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
41.	10654	मैसर्स धनरूप चिट्स एन्ड फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	10657	मैसर्स सिद्धारथा कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	10670	मैसर्स ब्रोडकास्ट इन्डिया टेलिविजन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
44.	10685	मैसर्स श्री कीरतनम कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	10698	मैसर्स बि.एस. टेक्नो रब्बर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	10719	मैसर्स श्री पदमम प्राईवेट लिमिटेड
47.	10725	मैसर्स टि.एन्ड.टी. आग्रो ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	10728	मैसर्स गुडफिना क्रेडिट्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	10736	मैसर्स स्कैकिंग ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

(1)	(2)	(3)
50.	10748	मैसर्स होमरूस मरिटैम प्राईवेट लिमिटेड
51.	10757	मैसर्स सुकुमार इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
52.	10795	मैसर्स एलियोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
53.	10813	मैसर्स काम-मैन्स कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
54.	10849	मैसर्स अनिल एडवरयईजिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
55.	10850	मैसर्स सुभद्रा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	10856	मैसर्स अकोर्न ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
57.	10857	मैसर्स महमुद एन्ड महमुद प्राईवेट लिमिटेड
58.	10867	मैसर्स एकदन्ता कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
59.	10893	मैसर्स खयइ आग्रो फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	10932	मैसर्स ट्रावन्कूर मिनरलस प्राईवेट लिमिटेड
61.	11040	मैसर्स इयु-डे-वी प्राईवेट लिमिटेड
62.	11042	मैसर्स मैलस्टोन मार्केटिंग सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
63.	11052	मैसर्स सिवास नं. 1 ट्रिनिटी बीच रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	11116	मैसर्स सन एन्ड इयू हिल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	11119	मैसर्स कान्जना चिट्टीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	11133	मैसर्स चेल इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
67.	11140	मैसर्स बीचलैन्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	11157	मैसर्स देवमनालम फैनान्स एन्ड कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
69.	11159	मैसर्स धनन्जया कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	11164	मैसर्स ग्रेस ग्रेनाइट एन्ड मिनरल वाटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
71.	11175	मैसर्स ब्रह्मा लेटक्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	11185	मैसर्स मेगा मिल्क प्राईवेट लिमिटेड
73.	11186	मैसर्स क्वासर चिट्स एन्ड फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	11188	मैसर्स फौन्टेन डाटा फॉर्मस प्राईवेट लिमिटेड
75.	11192	मैसर्स मूलिका हरबल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	11201	मैसर्स एम-सी-विन कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
77.	11218	मैसर्स ओरियन्टल कन्सल्टैन्सी सर्विसेज़ इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
78.	11236	मैसर्स ईगिल क्राफ्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

(1)	(2)	(3)
79.	11253	मैसर्स एनेस्टिक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	11258	मैसर्स एस के कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	11261	मैसर्स नेशनल पब्लिशिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड
82.	11263	मैसर्स फस्ट लाइन कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	11268	मैसर्स डि.एस. जे. इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	11286	मैसर्स रिसोर्ट डेवलपर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
85.	11287	मैसर्स चोवकारन फैनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

संजय सूद,
सहायक पंजीयक
केरला

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 560(3)/एस.एम./781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी :--

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	11291	मैसर्स ऐ बी सी कोन्टेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	11334	मैसर्स ट्रेडवेयर्स एक्सपोर्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	11359	मैसर्स हेरटस हायर परचेज एन्ड लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	11362	मैसर्स बल्डामोट फार्म एन्ड डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
5.	11363	मैसर्स पावटी कुरीस एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	11367	मैसर्स अम्बाडी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
7.	11383	मैसर्स दी लोर्ड फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
8.	11397	मैसर्स केरम आयुर्वेदिक हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	11411	मैसर्स चार्टर्ड टूरिज्म एन्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	11455	मैसर्स पोलीटेक मशीनरीस प्राईवेट लिमिटेड
11.	11483	मैसर्स रहमत रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	11491	मैसर्स मूरल एन्ड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	11530	मैसर्स ली एन्ड अलैकजन्डर इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	11532	मैसर्स फ्रन्टीयर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
15.	11561	मैसर्स भाषवी एन्जीकोन्स प्राईवेट लिमिटेड	46.	12008	मैसर्स पेन्डागोन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	11568	मैसर्स डी. वी. एस्टेट्स एन्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	12009	मैसर्स चियारी पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड
17.	11574	मैसर्स वेन्जे ट्रेड्स एन्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	48.	12012	मैसर्स कोन्वेरी इक्को सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	11579	मैसर्स काक्कसेरी फाईनांस एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	49.	12018	मैसर्स आनन्दम चिट्ट फन्ड प्राईवेट लिमिटेड
19.	11586	मैसर्स माकफील्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	50.	12025	मैसर्स बिनबिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	11606	मैसर्स ग्रामलक्ष्मी चिट्स एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	12026	मैसर्स गुरु मूवि मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	11619	मैसर्स पिन्क एन्ड गुडविल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	52.	12032	मैसर्स चैतन्या एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	11625	मैसर्स वास्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	12035	मैसर्स चेराई कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
23.	11636	मैसर्स ओ एन्ड सी सिस्टम्स एन्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	12039	मैसर्स सिसिन सोफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	11641	मैसर्स मेयडेल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	12057	मैसर्स सी ब्रीस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	11650	मैसर्स मयूरम इन्वेस्टमेन्ट्स एन्ड कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	56.	12077	मैसर्स वर्ड एडवर्टाइसिंग प्राईवेट लिमिटेड
26.	11660	मैसर्स वेजापरम्बिल एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	57.	12078	मैसर्स विस्मया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
27.	11671	मैसर्स सेफटेक इन्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	58.	12100	मैसर्स मलयालम मेडिकल मिशन प्राईवेट लिमिटेड
28.	11677	मैसर्स अन्सा फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	12106	मैसर्स सेफ्टी वाटर प्रूफिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	11686	मैसर्स हरिजन ग्रामा व्यवसाय लिमिटेड	60.	12110	मैसर्स चित्रसीमा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
30.	11698	मैसर्स इन्टरकनक्ट टूकल एन्ड टूरिसम प्राईवेट लिमिटेड	61.	12111	मैसर्स पुलितरा चिट्ट फन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	11711	मैसर्स आमसोन ग्रैनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	12124	मैसर्स यिक्वोनम फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	11725	मैसर्स लक्ष्मी दास ज्वेलर्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	63.	12128	मैसर्स ग्रीन ओयसिस एन्वयरमेन्टल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	11753	मैसर्स कोच्चिन पल्मिरा रिक्रीेशन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	64.	12132	मैसर्स पूरम चिट्ट एन्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	11760	मैसर्स टेक्नोक्राफ्ट स्टील प्राईवेट लिमिटेड	65.	12162	मैसर्स सिंडिकेट ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	11776	मैसर्स जुनो बौटिक प्राईवेट लिमिटेड	66.	12172	मैसर्स विन्ट्रोप होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	11807	मैसर्स सावन कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	67.	12179	मैसर्स बी. जी. टूर्स एन्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	11816	मैसर्स उत्राडम चिट्स एन्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड	68.	12191	मैसर्स कोक्सवेइन कोरियर प्राईवेट लिमिटेड
38.	11821	मैसर्स अलियन रबर प्राईवेट लिमिटेड	69.	12193	मैसर्स वाल्सल्या राजीव रक्षा अतुरा आसिता सेवा प्राईवेट लिमिटेड
39.	11852	मैसर्स मेन स्ट्रीम सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड	70.	12196	मैसर्स होमियो डीलर्स होलसेल डिपो प्राईवेट लिमिटेड
40.	11905	मैसर्स एम टी आई मोटर्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	71.	12224	मैसर्स दि वाटर सैड इन प्राईवेट लिमिटेड
41.	11947	मैसर्स वेब्सकूल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	72.	12227	मैसर्स अम्मु फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	11950	मैसर्स कुईलूथ चिट्ट फन्ड प्राईवेट लिमिटेड	73.	12241	मैसर्स पनिकर्स अग्री ओरगानिक्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
43.	11989	मैसर्स मेन्सा मेनेजमेन्ट्स कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	12247	मैसर्स साल्तिह ग्रैनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	11990	मैसर्स ज्योति कंट्रोल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	12248	मैसर्स आकाष इन्टिरियर एन्ड एक्स्टीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	12004	मैसर्स थायिल इम्पेक्स एन्ड टूर्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	12250	मैसर्स एम्पीथेस होल्डिंग्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
77.	12254	मैसर्स वल्लिकाट्ट इलास्टीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	12273	मैसर्स वालकोड टी प्राईवेट लिमिटेड
79.	12285	मैसर्स सेडिकोम कैपेसिटर्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	12286	मैसर्स इन्स्टेट कोरियर्स एन्ड कारगोस प्राईवेट लिमिटेड
81.	12301	मैसर्स मेट्रल सिस्टम्स एन्ड यूटिलिटीस प्राईवेट लिमिटेड
82.	12304	मैसर्स सप्तवरणा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	12324	मैसर्स इस्वरी पावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	12347	मैसर्स चैत्रम कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
85.	12355	मैसर्स कोकून हेरिटेज होम्स प्राईवेट लिमिटेड

संजय सुद
सहायक पंजीयक
केरला

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 560(3)/एस.एम./785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी :-

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	12358	मैसर्स सी. के. एम. फूड प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
2.	12374	मैसर्स अकाई क्रियेशन्स सिनेमा (प्राईवेट) लिमिटेड
3.	12381	मैसर्स सुपरजक चिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	12394	मैसर्स नाम्स नेटवर्क (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	12399	मैसर्स मरकार्ड प्राईवेट लिमिटेड
6.	12405	मैसर्स बीपोन्ड मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
7.	12413	मैसर्स हेन्डी क्राफ्ट्स एन्टरप्राइस (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	12415	मैसर्स ट्रावन्कूर लोटेरीस एन्ड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड
9.	12418	मैसर्स इन्टेग्रल लूब्स एन्ड पोलिमर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
10.	12420	मैसर्स हालिडे विल्लेज (प्राईवेट) लिमिटेड
11.	12432	मैसर्स टोपस्पोट विल्लास (प्राईवेट) लिमिटेड
12.	12443	मैसर्स चेनाल चिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
13.	12452	मैसर्स न्यू वेक्स रेडी वेयेर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	12454	मैसर्स सेवन स्टार प्लाईवुड (प्राईवेट) लिमिटेड
15.	12468	मैसर्स किंग वैनीयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
16.	12470	मैसर्स इन्टेग्रेटेड सोलार सिस्टम्स इन्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड
17.	12506	मैसर्स टेक्नोलाजी एंडेड सेक्युरिटी कोच्चि (प्राईवेट) लिमिटेड
18.	12520	मैसर्स पोर्टबिल सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
19.	12530	मैसर्स सधितार सैबर कन्सलटेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	12531	मैसर्स मैत्री कार वेयर (प्राईवेट) लिमिटेड
21.	12541	मैसर्स भोन्डे लारगी इलैक्ट्रॉनिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
22.	12543	मैसर्स वेल्सनिक्करा कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
23.	12562	मैसर्स एस. जी. डिस्टिलरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
24.	12568	मैसर्स बिस्मी मराइन एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
25.	12572	मैसर्स होलिडे बिल्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
26.	12620	मैसर्स न्यू लुक कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
27.	12654	मैसर्स स्वराज सेक्युरिटीज (प्राईवेट) लिमिटेड
28.	12655	मैसर्स रेयमन्ट एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
29.	12668	मैसर्स बेस्ट मेडिकेयर फार्मास्यूटिकल्स इन्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड
30.	12695	मैसर्स सेयलोसर्व सेल्स एन्ड सेरविस (प्राईवेट) लिमिटेड
31.	12697	मैसर्स गोल्डबर्ग बीबरेजस (प्राईवेट) लिमिटेड
32.	12707	मैसर्स पविसम बन्दरलान्ड एन्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
33.	12708	मैसर्स सिम्फोनी फर्नीचर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
34.	12723	मैसर्स स्कैग्रिप कोन्यूक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
35.	12744	मैसर्स अकषया सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
36.	12748	मैसर्स मुगल कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
37.	12752	मैसर्स प्रोक्सिमा पोलिमर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
38.	12788	मैसर्स है-कोम सोफ्टवेयर (प्राईवेट) लिमिटेड
39.	12815	मैसर्स अभिय मेडिकेयर सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
40.	12818	मैसर्स सिल्टेक टेक्नोलोजीस (प्राईवेट) लिमिटेड
41.	12840	मैसर्स वाई.एम.एस. लोटेरी सर्विसेज इन्डिया लिमिटेड
42.	12884	मैसर्स ए आर क्रै क्लोथिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
43.	12890	मैसर्स मलयाली कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
44.	12895	मैसर्स अमी-बेन अमुस्मेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
45.	12915	मैसर्स तथीफ एयर ट्रफिक सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
46.	12969	मैसर्स कन्साट नेटवर्क सिस्टम्स एन्ड टेक्नोलोजीस (प्राईवेट) लिमिटेड
47.	12976	मैसर्स श्रीमुरुगा टिम्बर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
48.	12987	मैसर्स मनिलाल सोप्स एन्ड कोस्मेटिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
49.	13012	मैसर्स एस्कडो इन्डिया ट्रेडर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
50.	13045	मैसर्स कूट्टील रोलर फ्लोर मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
51.	13049	मैसर्स गोश्री एक्विजम (प्राईवेट) लिमिटेड
52.	13062	मैसर्स एन. एल. एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
53.	13106	मैसर्स सरप्लस सर्विसेज (इन्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
54.	13128	मैसर्स कल्लियरा एस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
55.	13137	मैसर्स रिनस मार्केटिंग सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
56.	13138	मैसर्स पेस्ट सर्विसेज इन्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड
57.	13151	मैसर्स सुजित एन्टरप्राईसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
58.	13190	मैसर्स रिच्चीरिच होटल्स एन्ड रिसोर्ट्स (इन्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
59.	13191	मैसर्स नदीम ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
60.	13219	मैसर्स गुडलुक कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	13226	मैसर्स स्कै टेक्स ट्रेडिंग (इन्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
62.	13229	मैसर्स एन्डमयूरुथिल इरवी आयुर्वेदा मरमा वैध्यशाला (प्राईवेट) लिमिटेड
63.	13260	मैसर्स चिक्कागो रिवोल्विंग रेस्टोरन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
64.	13282	मैसर्स सागर लोजिस्टिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
65.	13284	मैसर्स अवरोऔन ट्रेडिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
66.	13289	मैसर्स इन्टरप्रीज वेयरहाउस लिमिटेड
67.	13301	मैसर्स पी.ए. मुहम्मद सलीम कोन्ट्रक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
68.	13306	मैसर्स वर्षा कोन्ट्रक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
69.	13316	मैसर्स मलयालम रिसोर्ट्स (इन्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
70.	13322	मैसर्स सालवा मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
71.	13323	मैसर्स जे.एम.सी. ब्रिक्स कम्पलेक्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
72.	13336	मैसर्स नेडुमन्गाई रब्बर ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
73.	13461	मैसर्स श्रीविजय होस्पिटल रिसर्च एन्ड हेल्थकेयर (प्राईवेट) लिमिटेड
74.	13464	मैसर्स आकाश मराइन (प्राईवेट) लिमिटेड
75.	13471	मैसर्स कुन्जनर पब्लिकेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
76.	13474	मैसर्स लोर्ट्स (नोवल) कम्प्यूटर सिस्टम एन्ड सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
77.	13483	मैसर्स सिव शौलम निवयर टागस (प्राईवेट) लिमिटेड
78.	13526	मैसर्स सनबरीज फुड्स (प्राईवेट) लिमिटेड
79.	13530	मैसर्स आलेप्पी गार्स एजन्सीस (प्राईवेट) लिमिटेड
80.	13599	मैसर्स सॉफ्ट ट्राक ए.टी. सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
81.	13622	मैसर्स के.बी. टिम्बर एन्ड वुड वर्क्स (प्राईवेट) लिमिटेड
82.	13631	मैसर्स पीपिल टेक सर्विसेज (प्राईवेट) लिमिटेड
83.	13714	मैसर्स मिल्लेनियम मीडिया विषन (प्राईवेट) लिमिटेड
84.	13720	मैसर्स अबस्ल्यूट सेकुर इन्फोरमेशन रिसोर्सस टेक्नोलोजीस (प्राईवेट) लिमिटेड
85.	13766	मैसर्स साब हैजीनिक प्रोडक्ट्स मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड

संजय सूद
सहायक पंजीयक
केरला

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 560(3)/एस.एम./789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी :-

क्रम पंजीकरण कम्पनी का नाम
संख्या संख्या

1	2	3
1.	13767	मैसर्स डिग फ्यूर सॉफ्टवेयर एन्डविकलिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
2.	13775	मैसर्स कल्लापरम्बिल कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
3.	13778	मैसर्स ज़ेड ट्रेड कम्बाइन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	14144	मैसर्स आईडियल फार्मस (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	14166	मैसर्स ओ.आर.बी. नेक्सस मेरकन्डाइसिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
6.	14186	मैसर्स मेन्टोर हॉस्पिटल एक्जुपमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
7.	14208	मैसर्स कल्पका लीजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	14226	मैसर्स आरबिट कोन्डिमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
9.	14238	मैसर्स बोल्गा पोलिमेस (प्राईवेट) लिमिटेड
10.	14250	मैसर्स विन्नी ग्लोरी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
11.	14260	मैसर्स अरविन्द सेक्युरिटीस (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
12.	14272	मैसर्स होलसोफ्ट सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
13.	14286	मैसर्स गुरुदेवा रिसर्चेन्सी (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	14289	मैसर्स कोन्कोत्रा आयुर्वेदिक फार्मसी (प्राईवेट) लिमिटेड
15.	14309	मैसर्स इन्टेलिसन्स सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
16.	14325	मैसर्स कूल ऐड (प्राईवेट) लिमिटेड
17.	14326	मैसर्स स्पैस होटल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
18.	14368	मैसर्स प्राजेक्ट स्नेल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
19.	14370	मैसर्स इन्डेकोर आर्किटेक्चर्स एण्ड बिल्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	14434	मैसर्स सान इकोम (प्राईवेट) लिमिटेड

संजय सूद
सहायक पंजीयक
कोरला

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 9th January 2006

No. A-60011/8/2005-Admn./RTI Cell.—In partial modification of the Notification of even number dated 8th September, 2005 and consequent upon the transfer/posting at the level of Joint Secretaries in the Commission's Offices and in terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the subject matters mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject Matter
1.	S/Shri Vasumitra	Joint Secretary (All India Services)	23073413	All matters pertaining to induction of State Services Officers to All India Services
2.	A. K. Vishandass	Joint Secretary (Examination Reforms)	23386793	All matters pertaining to Examination Reforms

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 10th February 2006

No. DP/PERS.I/2006/00027/3/40/2005.—Shri. V. Parmeswaran relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.01.2006 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 8th February 2006

No. 2/34/05-Admn./17235.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Rampal Singh-II, Assistant in the Commission as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in officiating capacity with effect from the forenoon of 01.02.2006 till further order.

MANGE LAL
Officer on Special Duty
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/14/03-Admn./17238.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri M. A. Khan, Section Officer in the Commission as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis with effect from 07.02.2006 (FN), for a period of three months or until further order, whichever is earlier.

MANGE LAL
Officer on Special Duty
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 1st February 2006

No. A-12012/4/EAD(CY)/2005-Admn.II.—Shri Harish Chander, Technical Suptd. (Cipher) of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director (Cipher) in the pay scale of Rs. 7,500—12,000/- with effect from 2nd January, 2006 until further orders.

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

No. A-12012/6/EAD/2005-Admn.II.—Shri M. J. Andhare, Senior Supervising Officer of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director in the pay scale of Rs. 7,500—12,000/- with effect from 30th December, 2005 until further orders.

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

No. A-12012/13(DD)/2004-Admn.II.—The President of India is pleased to promote Shri A. K. Varma, Assistant Director of this Directorate to the post of Deputy Director in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon 2nd January, 2006 on officiating basis.

2. This has the approval of the Govt. of India, MHA, New Delhi, vide their Dy. No. 1334/MOS(J)/05 dated 23rd December, 2005.

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 10th February 2006

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/09.—The President is pleased to appoint the following Deputy Commandants on regular promotion to the rank of Commandant in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in CISF with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	N. K. Bhardwaj	Ist Res. Bn. Barwaha	07.01.2006 (F. N.)
2.	S. N. Malhotra	TPT Tuticorin	04.01.2006 (F. N.)
3.	Hardeep Singh	PPT Paradeep	31.12.2005 (A. N.)
4.	N. Mukhopadhyay	Group Hqrs. Hyderabad	03.01.2006 (F. N.)
5.	Thomas Mathew	3rd Res. Bn. Bhilai	02.01.2006 (A. N.)
6.	O. P. Narain	AIG/Ord. FHQ New Delhi	31.12.2005 (A. N.)
7.	Subhash Sinha	IGI Airport New Delhi	31.12.2005 (A. N.)
8.	H. K. Dey	ECL Seetalpur	31.12.2005 (A. N.)
9.	M. S. Gain	UCIL Jaduguda	15.01.2006 (F. N.)
10.	Rajeev Pant	Mumbai Airport	02.01.2006 (F. N.)
11.	Dev Raj Singh	Group Hqrs. New Delhi	31.12.2005 (F. N.)
12.	Subrata Banga	Group Hqrs. Cochin	07.01.2006 (F. N.)
13.	P. N. Thakur	ONGC Jorhat	30.12.2005 (A. N.)
14.	Arun Kumar	AIG/Tech FHQ New Delhi	30.12.2005 (F. N.)
15.	R. K. Dey	KSTPP Korba	30.12.2005 (F. N.)
16.	S. R. Ramaswamy	AIG/Fire FHQ New Delhi	09.01.2006 (F. N.)
17.	K. Gopinathan	ISP Nasik	31.12.2005 (A. N.)
18.	Jayati Ghosh	Group Hqrs. Kolkata	31.12.2005 (F. N.)
19.	Ravindra Kumar	AIG/ES Patna	31.12.2005 (F. N.)
20.	S. M. Shareef	RTC Arakkonam	04.01.2006 (A. N.)
21.	H. K. Dutta	Trivandrum Airport	05.01.2006 (F. N.)
22.	Ban Mali Tandi	DHEP Dulhasti	07.01.2006 (F. N.)
23.	H. Hanumanthappa	SCCL Singreni	03.01.2006 (F. N.)
24.	S. Kumberwar	ONGC Ankleshwar	19.01.2006 (A. N.)
25.	Shyam Lal	KHSTPP Khalgaon	31.12.2005 (A. N.)
26.	Som Nath Oraon	6th Res. Bn. Arakkonam	18.01.2006 (F. N.)
27.	R. B. Bhatnagar	AIG/NS New Delhi	02.01.2006 (F. N.)
28.	Jag Mohan Singh Negi	FBP Farakka	02.01.2006 (F. N.)

1	2	3	4
29.	S/Shri D. D. Mondal	Commandant Airport (SW) Mumbai	31.12.2005 (F. N.)
30.	A. K. Srivastava	CTPS Chanderapura	02.01.2006 (F. N.)
31.	Lalji Ram Kaul	SCCL Singreni	10.01.2006 (F. N.)
32.	Ram Kishan	3rd Res. Bn. Bhilai	25.01.2006 (F. N.)
33.	Shreekant Kishore	NISA Hyderabad	26.01.2006 (F. N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/10.—The President is pleased to appoint the following directly recruited officers (Group 'A') as Assistant Commandant in CISF against the CPFs Examination-2003 with effect from the dates they joined the Institutions as mentioned below. These Officers are posted to the CISF Units as shown against each for the purpose of drawal of pay and allowances with effect from the same date:—

Sl. No.	Name of Officers	Name of the Institutions	Date of Joining	Place of Posting
1	2	3	4	5
	S/Shri/Smt.			
1.	L. H. Ngaihte	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	1st Res. Bn. Barwaha
2.	L. K. Haokip	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	3rd Res. Bn. Bhilai
3.	R. N. Ranmung	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	4th Res. Bn. Ranchi
4.	Mithilesh Kumar	NISA Hyd.	23.09.2005 (AN)	4th Res. Bn. Ranchi
5.	Sudhir Kumar	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	6th Res. Bn. Arakkonam
6.	Manish Singh	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	6th Res. Bn. Arakkonam
7.	Sunit Sharma	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	7th Res. Bn. Jaipur
8.	Akhilesh Kumar Shukla	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	RTC Deoli-I
9.	Dhiraj Kumar Shukla	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	RTC Deoli-II
10.	Raghubir Narain	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	RTC Mundali
11.	Nilesh Kumar	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	RTC Mundali
12.	Dilip Kumar	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	RTC Bhilai
13.	Ram Pratap Singh	NISA Hyd.	22.09.2005 (AN)	RTC Bhilai
14.	Rajesh	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	RTC Arakkonam
15.	Chandanshive Amol C	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	RTC Arakkonam
16.	Yatendra Negi	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	NISA Hyderabad
17.	S. Jaya Kumar	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	NISA Hyderabad
18.	Manish Kumar Gautam	NISA Hyd.	24.09.2005 (FN)	GP HQrs Delhi
19.	Vaibhav Kumar Dubey	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP Hqrs. Patna
20.	Nagendra Sharma	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP HQ Ahemdabad
21.	Jay Prakash Azad	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP HQ Kolkata
22.	Ruchi Anand	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP HQ Chandigarh
23.	Alok Kumar	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP HQ Allahabad

1	2	3	4	5
	S.Shri/Smt.			
24.	Tushar D. Sakhare	NISA Hyd.	23.09.2005 (FN)	GP HQ Hyderabad
25.	Shailendra Pratap Singh	NISA Hyd.	16.10.2005 (FN)	RTC Mundali
26.	Vinod Kumar Yadav	NISA Hyd.	16.10.2005 (FN)	RTC Arakkonam
27.	K. S. Chakravarthy	NISA Hyd.	31.10.2005 (AN)	6th Res. Bn. Arakkonam

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-28017/5/SY/06/Pers.-II/40.—Consequent to his retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, Shri Sayed Yakub, relinquished the charge of the post of Senior Commandant, CISF Unit, ONGC Ankleshwar in the afternoon of 31.01.2006 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 13th February 2006

No. E-32015/(4)/SK/2005/Pers.-I/11.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Shiv Kumar, Sr. Commandant CISF Unit BTPS (DVC) Bokaro with effect from 20.01.2006 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 7th February 2006

No. 19011/225/2005-Est.APP.—Shri S. C. Taluja, Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 31.01.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin. Officer

No. 19011/314/2005-Est.APP.—Shri Sarbeshwar Singh, Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 31.01.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin. Officer

No. 19011/377/2005-Est.APP.—Shri S. K. Saha, Sr. Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 31.01.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin. Officer

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 6th February 2006

No. 243A/A-32Q13/3-Chem.(Jr.)/2003/19B.—The President is pleased to appoint the following Assistant Chemist Grade-I, G. S. I., as Chemist (Jr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
1	2	3
1.	Shri S. K. Mishra	11.11.2005 (FN)
2.	Dr. H. C. Lohani	18.10.2005 (AN)
3.	Sri S. N. Girhe	18.10.2005 (AN)
4.	Dr. D. D. Upreti	18.10.2005 (AN)
5.	Dr. (Mrs.) Sarita Singh	18.10.2005 (AN)
6.	Shri Jairaj Gupta	18.10.2005 (AN)
7.	Shri S. K. Bhaduri	18.10.2005 (AN)
8.	Shri P. Purakayastha	18.10.2005 (AN)
9.	Shri Santi Ranjan Pal	18.10.2005 (AN)
10.	Dr. D. K. Bondopadhyay	19.10.2005 (FN)
11.	Dr. Tushar Kanti Pal	18.10.2005 (AN)
12.	Dr. V. K. Srivastava	18.10.2005 (AN)
13.	Shri Deo Muni Singh	18.10.2005 (AN)
14.	Dr. R. P. Sharma	18.10.2005 (AN)
15.	Shri Rafi Ahmed	18.10.2005 (AN)
16.	Dr. Sanjeev Kumar	18.10.2005 (AN)
17.	Shri U. C. Gautam	18.10.2005 (AN)
18.	Shri Jeevan Lal Meena	18.10.2005 (AN)
19.	Shri O. P. Meena	18.10.2005 (AN)
20.	Smt. Chandrima Roy	18.10.2005 (AN)

1	2	3
21.	Shri A. K. Srivastava	18.10.2005 (AN)
22.	Shri Swapan Kr. Sengupta	18.10.2005 (AN)
23.	Shri K. N. Mukhopadhyay	18.10.2005 (AN)
24.	Shri Mukund B. Lokhande	18.10.2005 (AN)
25.	Smt. Swapna Chakraborty	14.11.2005 (FN)
26.	Shri Ashim Kr. Mukherjee	18.10.2005 (AN)
27.	Dr. S. K. Acharya	03.11.2005 (FN)
28.	Shri Radhesyam Mondal	18.10.2005 (AN)
29.	Shri Kalicharan	07.11.2005 (FN)
30.	Shri H. Vijayarajulu	18.10.2005 (AN)
31.	Shri Rajeshwar Gharami	18.10.2005 (AN)
32.	Shri Chandra Kanta Mondal	18.10.2005 (AN)

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 244A/A-32013/3-Chem.(Jr.)/2003/19B.—The President is pleased to appoint the following Assistant Chemist Grade-I, G. S. I., as Chemist (Jr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
1	2	3
1.	Sri N. S. Nair	18.10.2005 (AN)
2.	Dr. (Mrs.) Banani Banerjee	18.10.2005 (AN)
3.	Sri S. S. Bose	18.10.2005 (AN)
4.	Dr. Parimal Roy Chowdhury	18.10.2005 (AN)
5.	Sri A. Venkat Reddy	18.10.2005 (AN)
6.	Smt. Pratima Tiwari	18.10.2005 (AN)
7.	Sri Om Swarup	18.10.2005 (AN)
8.	Smt. Chittari Sobha Rani	18.10.2005 (AN)
9.	Smt. S. N. Janbandhu	18.10.2005 (AN)
10.	Sri Y. Sudhakar	18.10.2005 (AN)
11.	Sri G. C. Saikia	18.10.2005 (AN)
12.	Sri V. K. Joshi	18.10.2005 (AN)
13.	Sri U. C. Jain	18.10.2005 (AN)

1	2	3
14.	Sri D. P. Chakraborty	18.10.2005 (AN)
15.	Sri Dipak Gurung	18.10.2005 (AN)
16.	Dr. Tapan Kr. Sinha	18.10.2005 (AN)
17.	Dr. (Mrs.) Vasudha Atre	18.10.2005 (AN)
18.	Dr. (Mrs.) Rashmi Srivastava	24.10.2005 (FN)
19.	Sri Pranab Kr. Mondal	18.10.2005 (AN)
20.	Sri B. D. Lal	18.10.2005 (AN)

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 245A/A-32013/3-Dir.(Geochem.)/96/19B, Vol. III.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Sri G. M. N. Sastry, Chemist (Sr.) as Director (Geochemistry) on promotion in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on a regular basis with effect from 07.12.2005 (AN) until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

The 13th February 2006

No. 325C/A-32013/4-Dir(Min. Phy.)/2001/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Dr. Alok Kumar, Minerologist (Sr.), Geological Survey of India, on promotion to the post of Director (Min. Phy.) with effect from 08.11.2005 (FN) in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis, until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 10th February 2006

No. 747-GE-I/13-2006.—The following IA&AS officers have retired on Superannuation/retired voluntarily from

Government Service with effect from the date shown against their names:—

S/Shri	
1. Ms. H. S. Narayanan	Retired voluntarily wef 06.01.2006 (FN)
2. P. V. Ravi	Retired Voluntarily wef 16.01.2006 (FN)
3. Y. C. Satyawadi	Retired on superannuation wef 31.01.2006 (AN)
4. T. Abraham	Retired on superannuation wef 31.01.2006 (AN)
5. B. D. Tripathi	Retired on superannuation wef 31.01.2006 (AN)
6. P. D. Jatav	Retired on superannuation wef 31.01.2006 (AN)

DEEPAK NARAIN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

No. 749-GE-I/13-2006.—Ms. P. B. Mutreja, Principal Private Secretary has retired on superannuation from Government Service with effect from 31.01.2006 (AN).

DEEPAK NARAIN
Asstt. Comptroller & Auditor General (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 13th February 2006

No. Admn./O.O. No.-326.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Audit Officers of this office to officiate as Senior Audit Officer in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 30.01.2006 (FN) until further orders:—

Names	
S/Shri	
1. Y. B. Sharma	
2. Mastan Singh	
3. Nazar Shah	
4. S. D. Ahluwalia	

K. PRASAD
Director (Admn.)

No. Admn./O.O. No.-327.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Gulshan

Rai, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.02.2006 (FN) until further orders.

K. PRASAD
Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT:
CENTRAL

Kolkata-700001, the 30th December 2005

No. 38.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Audit Officers as Senior Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.01.2006 (FN) [1st January 2006 being the holiday] or from the date from which they take over charge as Senior Audit Officer whichever is later:—

Sl. No.	Name	Section/Wing
S/Shri		
1.	Arun Moitra	CRAD
2.	Bibhansu Shekhar Nayak	ITRA
3.	Aurijit Datta	RAO/KoPT
4.	Vivekanand Jha	RAO/KoPT
5.	Dinabandhu Panda	CRAD
6.	R. Vinod Kumar	RAO/KoPT
7.	Sadananda Naskar (SC)	CERA
8.	Partha Gopal Bhattacharya	ITRA
9.	Swapan Kumar Dhar	ITRA
10.	Madhumita Banerjee (Mukherjee)	ITRA
11.	Atanu Chakraborty	ITRA
12.	Raj Kumar Gupta	ITRA
13.	Utpal Kumar Majumder	ITRA
14.	Ranjan Das	OAD

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 I(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

No. 39.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following five Assistant Audit Officers as Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2006 (FN) [1st January 2006 being the holiday] or from the date from which they take over charge as Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Sudip Dutta	ITRA
2.	Ratan Kanti Banerjee	CRAD
3.	Panchu Gopal Ghosh	
4.	Prasanta Chakraborty	OAD
5.	Rana Banerjee	ITRA

The officer mentioned at Sl. No. 3 above will report for duty to Dy. Director (Admn.) and posting orders will follow. The officers mentioned at Sl. Nos. 1, 2, 4 & 5 above are directed to report for duty to their respective Group Officers.

All the officials as above will be transferred to the Branch Office at ANI/Port Blair in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 I(a)(I) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)
Central

No. 40.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following ten Section Officers as Assistant Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 02.01.2006 (FN) [1st January 2006 being the holiday] or from the date from which they take over charge as Assistant Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Atanu Chatterjee	ITRA
2.	Anjani Kumar	RAO/KoPT
3.	Subha Guha Roy	CERA
4.	Anil Kumar Singh	CARD
5.	Sandesh Kumar Negotia	WAD

1	2	3
6.	Pulin Das	RAO/FBP
7.	Vikram Tirkey	ITRA
8.	Paramita Roy	CERA
9.	Somnath Mukhopadhyay	ITRA
10.	Dalia Chakraborty	CRAD

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 I(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)
Central

The 01st February 2006

No. 53.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Audit Officers as Senior Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 01.02.2006 (FN) or from the date from which they take over charge as Senior Audit Officer whichever is later:—

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Saumitra Sankar De	CRAD
2.	Debashis Chakraborty	(Confdl., EDP)

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 I(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)
Central

No. 54.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following three Assistant Audit Officers as Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/-

with effect from 02.01.2006 (FN) or from the date from which they take over charge as Audit Officer whichever is later:—

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Sonali Roy	OAD
2.	Pradeep Pahari	RAO/KOPT
3.	Champak Roy	CERA

The officers mentioned above are directed to report for duty to their respective Group Officers.

The officials except at Sl. No. 2 will be transferred to the Branch Office at ANI/Port Blair in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 I(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)
Central

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
J&K

Srinagar, the 30th December 2005

No. Admn.I/A&E/95-A.—Accountant General has been pleased to promote Smt. Hamida Ahmad, Accounts Officer to the cadre of Sr. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Group-B Gazetted) in an officiating capacity w.e.f. 02.01.2006 (1st being Sunday) or from the date she take over charge of higher post whichever is later.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of her pay within a period of one month from the date of her taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A&E)

No. Admn.I/A&E/96-A.—Accountant General has been pleased to promote Smt. Veena Sharma, Section Officer to the cadre of Assistant Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- (Group-B Gazetted) in an officiating capacity w.e.f. 02.01.2006 (1st being Sunday) or from the date she take over charge of higher post whichever is later.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of her pay within a period of one month from the date of her taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A&E)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 3rd February 2006

No. WN-I/Estt./209.—Under the orders of the A. G. (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions till further orders. They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Pijush Kumar De
2.	Sadhan Kumar Biswas
3.	Subrata Goswami

The above named Officers may submit their options under FR 22(I) (a)(1) within one month from the date of taking over charge as D. A. O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KARNATAKA

Bangalore, the 31st January 2006

No. ESI/A8/AO/2005-2006/248.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote the following Accounts Officers as Senior Accounts Officers carrying the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 31.01.2006 (FN) or from the date of assuming charge whichever is later until further orders.

Sl. No.	Name	E. C. No.	Remarks
1.	Sri P. B. Ganesh	19740524	—
2.	Sri K. N. Shamasundar	19730107	—
3.	Sri S. Krishnamurty (2)	19730909	—
4.	Sri A. Jayaprakash Ranjan	19740534	—

2. Option may be exercised by them for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I)(a)(1) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. ESI/A8/AO/2005-2006/249.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote Smt. Usha Y. J., Assistant Accounts Officer (EC No. 19761002) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 31.01.2006 (FN) from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by her for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

The 1st February 2006

No. ESI/A8/AO/2005-2006/253.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote Sri Gnanapurna K. M., Assistant Accounts Officer (EC No. 19790702) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.02.2006 (FN) from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by him for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-66, the 10th February 2006

No. AN-I/1173(JAG)/1/XIV/2006-07.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Junior Administrative Grade (Scale of Pay Rs. 12,000-375-16,500/-) of the Indian Defence Accounts Service, to the Selection Grade of the Junior Administrative Grade (Scale of Pay Rs. 14,300-400-18,300/-) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which appointed to Selection Grade of Junior Administrative Grade
1	2	3
	S/Shri	
1.	(Smt.) Vinakshi Gupta	01.01 2006
2.	Dhananjay Kumar	01.01.2006
3.	Jagdish Prasad Pandey	01.01 2006
4.	Rajiv Sharma	01.01 2006

1	2	3
	S/Shri	
5.	Raja Reddy Yemula	01.01 2006
6.	Sham Dev	01.01 2006
7.	M. C. Chakraborty	01.01 2006
8.	Rakesh Kumar Singh	01.01 2006
9.	Vipin Kumar Gupta	01.01 2006
10.	A. R. Sule	01.01 2006
11.	S. K. Choudhary	01.01 2006
12.	Taliremba	01.01 2006

A. K. CHOPRA
Joint CGDA (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-110012, the 2nd February 2006

No. 2-1/2005-Establishment.—Shri Ramesh Chandra, Assistant MGO's Branch Army Headquarter, Ministry of Defence, New Delhi, is hereby appointed to the post of Assistant Accounts Officer, GCS (Group-B) (Gazetted) (Ministerial) (Rs. 6,500-200-10,500/-) in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation (Ministry of Agriculture) with effect from the forenoon of 20th January, 2006, on usual deputation basis for a period ordinarily not exceeding three years or until further orders, whichever is earlier.

A. S. MISRA
Joint Director (Extension)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 2nd February 2006

No. 14/6(7)/2005-I&M(BRIT)/786.—Dr. Anil Kumar Kohli, Senior General Manager, Board of Radiation & Isotope Technology (BRIT) has assumed charge of the post of Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology (BRIT) with effect from the afternoon of 31st December, 2005.

A. K. V. NAIR
Under Secy.

Mumbai-400001, the 3rd February 2006

No. 7/2(5)/2000-SUS/818.—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Shankar Kshirsagar as Scientific Officer/Engineer Grade "D" in the Directorate of Construction, Services & Estate Management of this

Department in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 02.01.2006 (FN) until further orders.

D. SURENDRAN
Under Secy.

Mumbai-400001, the 6th February 2006

No. 6(2423)/2006/Adm/867.—Additional Secretary to the Govt. of India Department of Atomic Energy hereby appoints Shri U. S. Gawari, Assistant Accountant (Scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of February 1, 2006.

Shri Gawari will be on probation for a period of one year w.e.f. 01.02.2006.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hov Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 26th August 2005

No. SES/2003/560(5)/JL/55/39517/891.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hov Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rubina Leasing & Credits Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2005

No. SES/2003/560(5)/JL/55/45699/2324.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rubina Leasing & Credits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nebula Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 25th November 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/112473/5998.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nebula Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rohan Sole Company Private Limited

New Delhi-110019, the 25th November 2005

No. SES/2003/560(5)/55-33450/6012.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rohan Sole Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pleasure Home Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-34739/7829.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pleasure Home Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nutri Chicken Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/33726/7912.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Nutri Chicken Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rasiwaria Finance Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-64601/8221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rasiwaria Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anubhav Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/16386.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anubhav Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bluebeam Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/111602/8367.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bluebeam Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Drishti Finance Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/84936/8451.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Drishti Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Veeru Carriers (Ex-Servicemen) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/JL/55/49591/8663.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Veeru Carriers (Ex-Servicemen) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Engineering Consultancy (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 27th June 2005

No. SES/2003/560(5)/55-5291/8799.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Engineering Consultancy (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Robin Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36355/9315.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560

of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Robin Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Upper Land & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55260/9386.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Upper Land & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rengo Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3288/9404.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rengo Farms Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Highway Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36390/9407.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Highway Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Anand Steel Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-9402/9413.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krishna Anand Steel Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-6799/9421.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajdhani Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Puma Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-53275/9429.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Puma Leasing and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Decofabs Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-7777/9432.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Decofabs Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H. R. Wood Craft Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55123/9435.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. R. Wood Craft Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brother Air-Conditioners Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55656/9453.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brother Air-Conditioners Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Central Woden Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/6040/9457.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Central Woden Mills Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/6364/9466.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agarwal Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Klass Pack Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-28790/9484.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Klass Pack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Durable Steel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/6188/9509.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Durable Steel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sethi Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10123/9512.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sethi Builders Private Limited has this day been struck off from the

Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kubera Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10131/9515.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kubera Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Confab Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10568/9518.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Confab Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patwarijee Chit Fund & Finance Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10677/9521.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patwarijee Chit Fund & Finance Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goel Industries and Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10576/9524.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goel Industries and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neotech Insulations Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49778/9527.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neotech Insulations Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pioneer Vegetable Genetics India Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-049541/9530.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Vegetable Genetics India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TTB Airways Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49346/9533.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. TTB Airways

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suhail Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49148/9537.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suhail Investment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Interocontinental Construction Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-010094/9540.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Interocontinental Construction Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saurabh Roadlines Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-036427/9543.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saurabh Roadlines Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. P. S. Diagnostics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36629/9546.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. P. S. Diagnostics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saphire Plastics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10000/9549.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sphire Plastics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mav Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49864/9552.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mav Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ampad Agencies & Trading Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-5893/9555.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ampad Agencies & Trading Company Private Limited has this

day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Victory Tobacco Products Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10066/9558.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Victory Tobacco Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. U-Chem Pharma Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-006836/9561.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. U-Chem Pharma Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sona Paints Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-9453/9564.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sona Paints Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyam Chit & Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10548/9573.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satyam Chit & Trading Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumeru Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10934/9576.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sumeru Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eros Ceramics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/16601/9586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eros Ceramics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angel Equipments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-16600/9589.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Angel Equipments Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Powell Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/16658/9592.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Powell Engineers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dex Oil Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-16599/9595.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dex Oil Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brighton Appliances Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-16598/9598.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brighton Appliances Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Singh Pal Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/72379/9601.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Singh Pal Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Red Line Steels Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/52290/9604.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Red Line Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryan Moulding Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75355/9609.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aryan Moulding Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rhythm Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/34257/9614.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rhythm

Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharti Plantations Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/34175/9619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharti Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. L. K. Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65415/9624.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. L. K. Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technological Services India Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/57566/9629.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Technological Services India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. M. G. Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/117737/9634.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. M. G. Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AST Global Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/91178/9639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. AST Global Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aliya Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/101183/9644.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aliya Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gardner Denver India Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/22558/9654.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Gardner Denver India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D & R Traders Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/81454/9659.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. D & R Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bajaj Biscuits Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-032732/9669.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bajaj Biscuits Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parmdeep Equipment Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-32140/9673.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parmdeep Equipment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gulmarg Electronics and Electricals Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-18898/9683.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gulmarg Electronics and Electricals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gem Tool Room Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/20307/9688.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gem Tool Room Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shagun Laboratories Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/72967/9689.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shagun Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Advanced Heating Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-15126/9694.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Pragati Advanced Heating Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangla Jute & Fabrics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-32717//9699.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mangla Jute & Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Adya Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/104960/9704.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Adya Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agnihotri Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/94879/9709.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agnihotri Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saloni Marketing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-49192/9726.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saloni Marketing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arka Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/112091/9731.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arka Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Technoplast Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/103075/9736.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishna Technoplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spining Doors Infocom Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-108554/9741.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Spining Doors Infocom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sood Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-52166/9746.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sood Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aastha Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-85694/9751.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aastha Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Belvedere Land and Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/55521/9756.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Belvedere Land and Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sewak Apartments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-76643/9757.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sewak Apartments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aviafort Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-50356/9761.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aviafort Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E-Diffusion. Com Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-105129/9766.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. E-Diffusion. Com Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khurana Esteem Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-81653/9771.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Khurana Esteem Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Maritronics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-10326/9776.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Galaxy Maritronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. R. M. Distributors Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-067539/9781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. R. M. Distributors Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahayak Forest (India) Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90362/9781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahayak Forest (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Real Tourism India Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-73095/9786.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Real Tourism India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambience Textiles Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90970/9791.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambience Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parul Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-30508/9796.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parul Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ram Nath Monga Distributors Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-36663/9801.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Ram Nath Monga Distributors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sam Air-conditioning & Refrigerations Private
Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-47280/9806.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sam Air-conditioning & Refrigerations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharma Clothers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-7413/9811.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sharma Clothers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samsun Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-069561/9816.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samsun Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliable Surveyors Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-090436/9821.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Reliable Surveyors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arun Kaul Productions Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-65800/9826.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arun Kaul Productions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mona Hire Purchase Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-57570/9831.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mona Hire Purchase Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dewan Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-059970/9836.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Dewan Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nayar Agro Reap Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-80827/9841.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nayar Agro Reap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Palco's Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-17641/9846.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Palco's Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girraj Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-24275/10003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Girraj Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girraj Electricals Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-23136/10008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Girraj Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girraj Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-22896/10013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Girraj Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Encompass Productions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-80958/10018.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Encompass Productions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Constructions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-23606/10023.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Shakti

Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Netsite Education Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-112363/10041.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Netsite Education Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parsol Electro Plast Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-82984/10046.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parsol Electro Plast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sawyer Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-10554/10061.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sawyer Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fakuya Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-085148/10066.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fakuya Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pria Consultant Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/37071/10071.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pria Consultant Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SPS Adhesive Tapes Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/92571/10076.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SPS Adhesive Tapes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Disha Hospitals and Health Care Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/111858/10081.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Disha

Hospitals and Health Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhaka Builders and Financiers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-45726/10086.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhaka Builders and Financiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Coronet Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-18471/10091.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Coronet Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Welcome Textiles Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-23998/10096.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Welcome Textiles Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. Shankar Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-55684/10101.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. Shankar Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inlike Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-070629/10106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Inlike Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meetika Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-107957/10111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meetika Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nilay Computronix Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-71836/10116.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Nilay Computronix Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Luck Footwear Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-32374/10121.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Luck Footwear Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samwell Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-30183/10146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samwell Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radey Shyam Devki Nandan Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/47982/10151.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radey Shyam Devki Nandan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pee Aar Wires & Cables Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-81279/10156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pee Aar Wires & Cables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapoor and Kapoor Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-43613/10161.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kapoor and Kapoor Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chatterjee Tours Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-026751/10166.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chatterjee Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaulahiri Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-93768/10171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Kaulahiri Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Acquaduct Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-043727/10176.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Acquaduct Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comfax Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90851/10181.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Comfax Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaibhav Roller Flour Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-30509/10186.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vaibhav Roller Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. FCS Biomedic Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90563/10191.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. FCS Biomedic Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Equinox Infrastructure Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/86675/10196.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Equinox Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Babuji Impex Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-37214/10201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Babuji Impex Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. DVS Projects Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-122292/10206.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. DVS Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saba Indusha Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-110554/10211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saba Indusha Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Talk Fashions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-53582/10216.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Talk Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kushana Jewels Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-040104/10221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kushana Jewels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanmaya Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-033166/10226.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhanmaya Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. IT Skill Plus Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-91258/10231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. IT Skill Plus Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samkul Softek Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-104312/10236.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samkul Softek Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Ganesh Finlease Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-33571/10241.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Jai Ganesh Finlease Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Exone Drugs Company Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-034141/10246.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Exone Drugs Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nausan Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/74802/10251.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nausan Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. NISS Din Food Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/106956/10256.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. NISS Din Food Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hamilton Immigration Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/120555/10261.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hamilton Immigration Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monark Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/83925/10266.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monark Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HPS Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/113720/10271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. HPS Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Delhi Pollution Control Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-81471/10281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Delhi Pollution Control Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Floritec Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-78415/10286.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajdhani Floritec Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Indofoods Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-78433/10291.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajdhani Indofoods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. De Matriks Technology Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/34896/10296.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. De Matriks Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Carriers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-34935/10301.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pragati Carriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inside Education Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-105033/10306.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Inside Education Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swan Trade Link Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/76236/10311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swan Trade Link Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Moleshree Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/24152/10316.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Moleshree Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. L. M. Design (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-93466/10321.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. L. M. Design (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Vision Agency Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-787686/10331.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Vision Agency Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vertex Elevator India Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65366/10336.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vertex Elevator India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sugan Chand Murari Lal Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/8188/10341.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sugan Chand Murari Lal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fiona Marketing & Consultancy Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-55285/10346.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fiona Marketing & Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ARC Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-28940/10351.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ARC Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. B. Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-16197/10356.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. B. Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Services Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-72519/10361.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Shakti Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekta Furnishers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-39412/10366.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ekta Furnishers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anjani Marshall (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-14055/10371.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anjani Marshall Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nuamms Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-104165/10376.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nuamms Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Holidays & Tours Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-119698/10381.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Western Holidays & Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pretty Petals Body Care Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-58080/10391.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pretty Petals Body Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Solbeach (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-10235/10396.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Solbeach (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Noida Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55/82757/10401.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Noida Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ritsan Scientific & Surgicals Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55/75226/10406.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ritsan Scientific & Surgicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. K. Learning Dimension Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55-120984/10411.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. K. Learning Dimension Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mandi Constructions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55-64006/10416.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mandi Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A-One Oil Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55-84927/10421.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A-One Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Peregrine Tools Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55-76543/10426.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Peregrine Tools Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mega Cargo Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. w/s 560(3)/SES/2005/55-96181/10431.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of M/s. Mega Cargo Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Caravan Business Machines Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-19132/10436.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Caravan Business Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Falcon Distilleries and Breweries Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-62906/10441.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Falcon Distilleries and Breweries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SAV Export Import Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-112179/10446.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SAV Export Import Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. FCS Genetics Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90517/10451.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. FCS Genetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. FCS Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90520/10456.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. FCS Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arisys Automotion Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-085687/10461.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arisys Automotion Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Telemek Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-30160/10471.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Telemek Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Booksell (India) Company Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-56481/10476.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Booksell (India) Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Big Top Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-10372/10481.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Big Top Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Newshound Productions Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-110024/10486.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Newshound Productions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chawlas Chic-inn Restaurant Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-063699/10491.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chawlas Chic-inn Restaurant Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Young Blood Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-75441/10496.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Young Blood Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. LRM Electricals Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-90949/10501.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. LRM Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. K. Furcon Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-29449/10506.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. R. K. Furcon Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jason Links Builders & Developers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/32953/10511.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jason Links Builders & Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinetra Credits Hire & Leasing Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-031460/10521.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trinetra Credits Hire & Leasing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sprint Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/74802/10526.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sprint Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanta Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/17184/10531.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanta Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Technocrafts Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-99350/10536.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Technocrafts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Corporate Value Software Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/108786/10541.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Corporate Value Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pratap Medical Publishers Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/53710/10546.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Pratap Medical Publishers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mobius Band Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 9th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/104366/10557.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mobius Band Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yak Electrical Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. SES/2003/560(5)/55/15228/10886.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yak Electrical Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. BEFA Technology Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-102740/10889.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. BEFA Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. I. P. Music Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-125648/10894.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. I. P. Music Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hoovering Machines Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-39694/10899.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hoovering Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajay Dye-Chem Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-7991/10904.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ajay Dye-Chem Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gazal Park Outdoor Caterers Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-47797/10909.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Gazal Park Outdoor Caterers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Rajeshwari Finlease Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-69000/10914.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raj Rajeshwari Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D. K. Films Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-111829/10919.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. D. K. Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mekaster Software Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-031647/10924.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mekaster Software Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trchenson Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-020333/10929.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trchenson Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brijwasi Fincap Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/83678/10934.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brijwasi Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimot Publishers Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-36589/10939.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vimot Publishers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Black Cat Computer Services Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-77353/10944.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Black Cat

Computer Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwandas Rameshwar Dayal (India) Private
Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-95885/10949.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagwandas Rameshwar Dayal (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. G & T Diesel Controls Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-073131/10954.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G & T Diesel Controls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Frostair Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd February 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/88169/10959.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Frostair Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pals Toys Overseas Private Limited

Kanpur-208001, the 14th February 2006

No. 560(3)/SES-5605/14029/5221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pals Toys Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yaarian Multilink Marketing Private Limited

Jaipur, the 7th February 2006

No. ROC/JPR/560/17658/180.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Yaarian Multilink Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kohinoor Exhibitors Private Limited

Jaipur, the 7th February 2006

No. ROC/JPR/560/2417/194.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Kohinoor Exhibitors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208001, the 7th February 2006

No. 560(5)/LC/2084.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this

day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	3764	M/s. Meeco Motor & General Finance Company Pvt. Ltd.
2.	5531	M/s. Punj Star Hotels Pvt. Ltd.
3.	24737	M/s. B. N. Yadav Auto Marketing Pvt. Ltd.
4.	12397	M/s. Saharanpur Cement Works Ltd.
5.	23926	M/s. Professional Mineral Water Pvt. Ltd.
6.	8707	M/s. JRP Tex Exports Pvt. Ltd.
7.	26224	M/s. Kailash Insurance Agency Pvt. Ltd.
8.	7242	M/s. Sanghal Extrudes Pvt. Ltd.
9.	12838	M/s. KCR Finance & Investment Company Pvt. Ltd.
10.	22452	M/s. MMB Finance & Investment Company Pvt. Ltd.
11.	20580	M/s. Windsor Schools Pvt. Ltd.
12.	23045	M/s. MMB Housing & Real Estates Ltd.
13.	13950	M/s. Glowshine Electricals Pvt. Ltd.
14.	19982	M/s. Midas Finvestment & Leasing Ltd.
15.	8531	M/s. Varanasi Consumer Services Pvt. Ltd.
16.	16549	M/s. Anjaneya Finance & Investment Company Ltd.
17.	15064	M/s. Garlon Finance & Leasing Pvt. Ltd.
18.	14542	M/s. Ratan Printing Works Pvt. Ltd.
19.	27941	M/s. Dilip Sales Pvt. Ltd.
20.	26557	M/s. Ornate Chit Fund Pvt. Ltd.
21.	27985	M/s. Powerboom Marketing Services Pvt. Ltd.
22.	14959	M/s. Pashupati Alums Pvt. Ltd.
23.	7465	M/s. Kusum Polycoates Pvt. Ltd.
24.	10349	M/s. Eternal Leathers Pvt. Ltd.
25.	9710	M/s. Neelambuj Wires Pvt. Ltd.
26.	27873	M/s. CDF Labs Pvt. Ltd.
27.	7953	M/s. Hotel Jaisiyaram Pvt. Ltd.
28.	14924	M/s. Monts Hotels Pvt. Ltd.
29.	19070	M/s. Gowri Builders Pvt. Ltd.
30.	24095	M/s. Teddy's Sales Pvt. Ltd.
31.	19019	M/s. Swadeshi Organics Pvt. Ltd.
32.	13595	M/s. R. A. Investment Pvt. Ltd.

1	2	3
33.	25308	M/s. Chandoo Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
34.	23204	M/s. Kaul Schuhteks Pvt. Ltd.
35.	17963	M/s. AVJ Papers Pvt. Ltd.
36.	10592	M/s. Mite Compute Services Pvt. Ltd.
37.	20196	M/s. Bhartiya Gramin Krishi Avam Vaniki Vikash Ltd.
38.	14966	M/s. Suprabha Housing & Investment (India) Ltd.
39.	10602	M/s. Buddha Fero Alloys Ltd.
40.	17583	M/s. Zeal Shares & Stock Pvt. Ltd.
41.	13806	M/s. Shivam Lami Coates Pvt. Ltd.
42.	8422	M/s. United Real Estate Finance Ltd.
43.	7485	M/s. Acetox Equipments Pvt. Ltd.
44.	21926	M/s. Orbit Agrotech Ltd.
45.	7605	M/s. Agra Mettallurgical Engineers Pvt. Ltd.
46.	21970	M/s. Chandraped Infotech Pvt. Ltd.
47.	11097	M/s. Mangalam Moulders Pvt. Ltd.
48.	23964	M/s. Giyn Diagnostic Centre & Blood Bank Pvt. Ltd.
49.	17629	M/s. Biosun Formulations Pvt. Ltd.
50.	19303	M/s. Ambalika Hire Purchase & Leasing Pvt. Ltd.
51.	11113	M/s. Classic Agrochem Pvt. Ltd.
52.	17635	M/s. Pee Gee Investment & Leasing Company Pvt. Ltd.
53.	16014	M/s. Suprabha Mutual Benefit Ltd.
54.	20317	M/s. Dena Finance & Leasing Ltd.
55.	25615	M/s. Mittal Stock Brokers & Securities Pvt. Ltd.
56.	25609	M/s. H. C. Builders Pvt. Ltd.
57.	14091	M/s. Shashank Credits Pvt. Ltd.
58.	13459	M/s. Master Texx Process House Pvt. Ltd.
59.	4892	M/s. Phoolson Agro Pvt. Ltd.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 7th February 2006

No. SES-2005/ROC(Guj)/2125.—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have been struck off from the Register of Companies and the said Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	Name of the Company	Regd No.
1	2	3
1.	M/s. Manilal Joitaram Pvt. Ltd.	04-3936
2.	M/s. Shrepak Dychem Pvt. Ltd.	04-5162
3.	M/s. Rashmi Farming and Cattle Products Pvt. Ltd.	04-5549
4.	M/s. Savani Enterprises (Engg.) Pvt. Ltd.	04-5783
5.	M/s. Acme Techno Services Pvt. Ltd.	04-6253
6.	M/s. Management Analytics Pvt. Ltd.	04-6794
7.	M/s. Narendra Desai Investment Pvt. Ltd.	04-7338
8.	M/s. Sunny Builders Pvt. Ltd.	04-7733
9.	M/s. Uni Royal Laboratories Pvt. Ltd.	04-7811
10.	M/s. Punit Machines Pvt. Ltd.	04-7984
11.	M/s. Nishit Textiles Pvt. Ltd.	04-8018
12.	M/s. Spectoms Unitop Pvt. Ltd.	04-9130
13.	M/s. Colman Consultants Pvt. Ltd.	04-9236
14.	M/s. VIII Electronics Components Pvt. Ltd.	04-9513
15.	M/s. Bankura Foods Pvt. Ltd.	04-9823
16.	M/s. Adri Investment Pvt. Ltd.	04-10270
17.	M/s. Bajrang Coal Ash Company Pvt. Ltd.	04-10653
18.	M/s. Nue-Tech Paper Tubes & Canes Pvt. Ltd.	04-10969
19.	M/s. Atlas Petrochemicals Pvt. Ltd.	04-11834
20.	M/s. Maruti Filters Pvt. Ltd.	04-12535
21.	M/s. Channel Leasing and Finance Pvt. Ltd.	04-12822
22.	M/s. Jain Shareaids Pvt. Ltd.	04-13717
23.	M/s. Baddi Estates Pvt. Ltd.	04-14823
24.	M/s. Intra Chem Pvt. Ltd.	04-15222
25.	M/s. Dimka Investment Pvt. Ltd.	04-15238
26.	M/s. Karma Vipak Leasing Company Ltd.	04-15588
27.	M/s. Mardia Trading Ltd.	04-15968
28.	M/s. Noopur Tex Rub Pvt. Ltd.	04-16120

1	2	3
29.	M/s. Paam Marketing Pvt. Ltd.	04-16175
30.	M/s. Micro Stamping and Forging Pvt. Ltd.	04-16415
31.	M/s. Chhatariya Steels Pvt. Ltd.	04-16529
32.	M/s. Jill Financial Consultants Pvt. Ltd.	04-16925
33.	M/s. Hypro Insulation Pvt. Ltd.	04-16948
34.	M/s. Techno Fuel Pvt. Ltd.	04-17003
35.	M/s. Chakshu Communication Pvt. Ltd.	04-17107
36.	M/s. Maruti Surgical Disposable Pvt. Ltd.	04-17977
37.	M/s. Yogeshwar Ayurvedik Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	04-18406
38.	M/s. Libra Sales Pvt. Ltd.	04-18482
39.	M/s. Uttam Security Services Pvt. Ltd.	04-33261
40.	M/s. Acvance Oil Exploration Pvt. Ltd.	04-19173
41.	M/s. Komal Pharmaceuticals Ltd.	04-19255
42.	M/s. Green Complex Pvt. Ltd.	04-19468
43.	M/s. Vinayak Silk Mills Pvt. Ltd.	04-19748
44.	M/s. Dhara Agro Farms Pvt. Ltd.	04-19812
45.	M/s. Datar Investment and Traders Pvt. Ltd.	04-19864
46.	M/s. Horiomdada Business House Pvt. Ltd.	04-20127
47.	M/s. Shree Datt Colour Company Pvt. Ltd.	04-20163
48.	M/s. Basil Remedies Pvt. Ltd.	04-20516
49.	M/s. Shah and Mahadevia Financial Services Pvt. Ltd.	04-21219
50.	M/s. Yash Resource Remedies Pvt. Ltd.	04-25172
51.	M/s. Space Finstock Pvt. Ltd.	04-30227
52.	M/s. Adpur Palace Hotel Pvt. Ltd.	04-30239
53.	M/s. Quasar Infotech Ltd.	04-30527
54.	M/s. Precious Nightwear Pvt. Ltd.	04-30664
55.	M/s. Prabhat Finvest Ltd.	04-31315
56.	M/s. Nice Infotech Pvt. Ltd.	04-31670
57.	M/s. Ramrajya Developers Pvt. Ltd.	04-31880

1	2	3
58.	M/s. Gandhi Die-Casting Pvt. Ltd.	04-32022
59.	M/s. Shrimad Properties Pvt. Ltd.	04-32582
60.	M/s. Arbuda Motels Pvt. Ltd.	04-33873
61.	M/s. Hira Food Products Pvt. Ltd.	04-34377
62.	M/s. K. G. Dave Water Utilities Pvt. Ltd.	04-34482
63.	M/s. Aecent Xerographics Services Pvt. Ltd.	04-35434
64.	M/s. A. M. Exim (India) Pvt. Ltd.	04-36254
65.	M/s. Soham Iron and Steels Pvt. Ltd.	04-36366
66.	M/s. Padmo Saviour Trading and Services Pvt. Ltd.	04-36528
67.	M/s. Gujarat Cold Inn Pvt. Ltd.	04-37682
68.	M/s. Purvi Mercantile Pvt. Ltd.	04-38077
69.	M/s. Dhvani Cargo and Courier Pvt. Ltd.	04-38224
70.	M/s. Excel Computata Forms and Graphics Pvt. Ltd.	04-39440
71.	M/s. Turbo Casting Pvt. Ltd.	04-39694
72.	M/s. Govind Conductors Pvt. Ltd.	04-20074
73.	M/s. S. Vijay Real Estate Pvt. Ltd.	04-20128
74.	M/s. Astral Polymers Pvt. Ltd.	04-33644
75.	M/s. Baddi Biochem Pvt. Ltd.	04-20822
76.	M/s. Rajeshwari Ship Braking Pvt. Ltd.	04-21148
77.	M/s. Karnavati Dyestuff Pvt. Ltd.	04-21020
78.	M/s. Tukaramsa Leasing and Finance Pvt. Ltd.	04-22037
79.	M/s. Vasupujya Finstock Pvt. Ltd.	04-22048
80.	M/s. Satrunjay Investments Pvt. Ltd.	04-22264
81.	M/s. Abhiyog Textiles Pvt. Ltd.	04-43295
82.	M/s. Argus Textiles Pvt. Ltd.	04-43293
83.	M/s. Burton Fabrics Pvt. Ltd.	04-43372
84.	M/s. Niagara Fabrics Pvt. Ltd.	04-43294
85.	M/s. City Couriers Pvt. Ltd.	04-15385
86.	M/s. Namami Holdings Pvt. Ltd.	04-5174
87.	M/s. Mona Synthetics Pvt. Ltd.	04-18081
88.	M/s. Panchaguli Caplease Ltd.	04-22602
89.	M/s. Kinhari Stock Holding Pvt. Ltd.	04-16642

1	2	3
90.	M/s. Astitva Holdings Pvt. Ltd.	04-5175
91.	M/s. Ataku Holdings Pvt. Ltd.	04-4896
92.	M/s. Nishiv Engineering Pvt. Ltd.	04-16815
93.	M/s. Urvika Stock Holdings Pvt. Ltd.	04-16641
94.	M/s. Meghdoot Organics Ltd.	04-22773
95.	M/s. Alpic Securities Pvt. Ltd.	04-22849
96.	M/s. Asarawala Texturisers Pvt. Ltd.	04-15844
97.	M/s. Maruti Commercial Service Pvt. Ltd.	04-23082
98.	M/s. Esteem Exports Pvt. Ltd.	04-23084
99.	M/s. Stylus Finance Pvt. Ltd.	04-23582
100.	M/s. Arbuda Holdings & Finance Pvt. Ltd.	04-23695
101.	M/s. Shine Housing Development Ltd.	04-20316
102.	M/s. Prayas Investment Pvt. Ltd.	04-24316
103.	M/s. Dholu Ventures Pvt. Ltd.	04-24444
104.	M/s. Radiant Electricals Pvt. Ltd.	04-24644
105.	M/s. Motel Meghavi Pvt. Ltd.	04-25341
106.	M/s. Jivannirwah Farms Pvt. Ltd.	04-25943
107.	M/s. Chip-N-Deal Holdings Pvt. Ltd.	04-26169
108.	M/s. Parasrampuria Syncot Ltd.	04-26284
109.	M/s. Miraj Stock Secura Ltd.	04-26750
110.	M/s. Bios Agritech Ltd.	04-26875
111.	M/s. Real Star Resorts Ltd.	04-26898
112.	M/s. Siddhesh Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	04-27146
113.	M/s. Tripda Agro & Dairy Products Ltd.	04-27226
114.	M/s. Makarpura Industrial Electrical Products Pvt. Ltd.	04-27214
115.	M/s. Akropan Finance Ltd.	04-27505
116.	M/s. Ankuj Pharmachem Pvt. Ltd.	04-28557
117.	M/s. Shree Ambica Surgical Medical Disposable Products Pvt. Ltd.	04-28631
118.	M/s. Motiram Financial Services Pvt. Ltd.	04-28721
119.	Mohinikripa Erectors Pvt. Ltd.	04-8426
120.	M/s. Vinal Finalize Ltd.	04-28893

1	2	3
121.	M/s. Pan India Securities Ltd.	04-28932
122.	M/s. Citilink Finsec Ltd.	04-29046
123.	M/s. Gems Bond Jewels Pvt. Ltd.	04-40230
124.	M/s. Gyani Communications Pvt. Ltd.	04-40799
125.	M/s. Thunder Network Pvt. Ltd.	04-41971
126.	M/s. Ripples Resorts Pvt. Ltd.	04-42366
127.	M/s. Sparkle Stone Tech Pvt. Ltd.	04-42788
128.	M/s. Godwany Plastics Pvt. Ltd.	04-43923
129.	M/s. Shree Saptgireshwar Chemicals Pvt. Ltd.	04-43931
130.	M/s. Crystal Forge Pvt. Ltd.	04-43889
131.	M/s. Next Step Technology Pvt. Ltd.	04-44089
132.	M/s. Pan India Finlease Pvt. Ltd.	04-29002
133.	M/s. T & T Net Works Ltd.	04-24520
134.	M/s. Brilliant Gems Exim Pvt. Ltd.	04-32642
135.	M/s. Vishal Cements Pvt. Ltd.	04-6625
136.	M/s. Anis Constructions Pvt. Ltd.	04-26812
137.	M/s. Deekeenns Synthetics Pvt. Ltd.	04-14935
138.	M/s. A. K. Petroleums Ltd.	04-26631
139.	M/s. Adorn Plast Pvt. Ltd.	04-30110
140.	M/s. Shyam Cine Enterprises Pvt. Ltd.	04-35367
141.	M/s. Vishal Internet Services Pvt. Ltd.	04-36001
142.	M/s. Beam Infosoft Pvt. Ltd.	04-38120
143.	M/s. Fluke Marketing Pvt. Ltd.	04-38144
144.	M/s. Alchemy Technologies Pvt. Ltd.	04-38251
145.	M/s. Atco Petroleum Ltd.	04-37287
146.	M/s. Vishal Caps Pvt. Ltd.	04-37091
147.	M/s. Indigenious Infotech (India) Pvt. Ltd.	04-37826
148.	M/s. Sapphire Cooling Systems Pvt. Ltd.	04-37131
149.	M/s. Shilohar Voltech Engineering Pvt. Ltd.	04-35311
150.	M/s. Kothari Pigments Pvt. Ltd.	04-34476
151.	M/s. Garima Financial Services Pvt. Ltd.	04-26238
152.	M/s. The Film Development Corporation of Gujarat Ltd.	04-06730
153.	M/s. Harituraj Investments Pvt. Ltd.	04-07288

1	2	3
154.	M/s. Laxmi Roto Print Pvt. Ltd.	04-07864
155.	M/s. Saurashtra Commodities Association Ltd.	04-19459
156.	M/s. Vital Link Business and Investment Consultancy Pvt. Ltd.	04-12519
157.	M/s. Prime Security System Pvt. Ltd.	04-15350
158.	M/s. Prudent Fincom Services Pvt. Ltd.	04-19791
159.	M/s. Ashirvad Nursing Home Pvt. Ltd.	04-18839
160.	M/s. Prime Silicon Pvt. Ltd.	04-20126
161.	M/s. Nandketan Finstock Pvt. Ltd.	04-21654
162.	M/s. Lippi Pharma Caps Ltd.	04-21396
163.	M/s. Shree Dhanji Holdings Pvt. Ltd.	04-21288
164.	M/s. Jamnagar Land Developers Pvt. Ltd.	04-21059
165.	M/s. Shri Krupa Textiles Pvt. Ltd.	04-21410
166.	M/s. Vastupal Securities Pvt. Ltd.	04-26924
167.	M/s. Akshar Tube Weld Pvt. Ltd.	04-31646
168.	M/s. Dagli Interstate Consultants Pvt. Ltd.	04-27765
169.	M/s. Gujarat Aqua Gold Ltd.	04-27140
170.	M/s. Vinal Polytex Ltd.	04-28543
171.	M/s. Ace Cranes and Excavators Pvt. Ltd.	04-29200
172.	M/s. Morsons Impex Pvt. Ltd.	04-31629
173.	M/s. Gujarat Hydrocarbon Pvt. Ltd.	04-31657
174.	M/s. Trimurti Industrial Coating Pvt. Ltd.	04-32331
175.	M/s. Masrani Laboratories Pvt. Ltd.	04-32530
176.	M/s. Helly Hardware Products Pvt. Ltd.	04-40641
177.	M/s. Xenia Marketing Pvt. Ltd.	04-40142
178.	M/s. Vasco Marketing Pvt. Ltd.	04-40536
179.	M/s. Arth Infrastructure Pvt. Ltd.	04-41062
180.	M/s. Ridhhi Reality Pvt. Ltd.	04-30440
181.	M/s. Anand Antibiotics Pvt. Ltd.	04-30104
182.	M/s. Pipal Properties Pvt. Ltd.	04-31546
183.	M/s. Parikh Realty Pvt. Ltd.	04-31196

1	2	3
184.	M/s. Dahej Petrochem Trading Pvt. Ltd.	04-31626
185.	M/s. Mukesh Timbers Pvt. Ltd.	04-33647
186.	M/s. Intertech Softwares Pvt. Ltd.	04-36474
187.	M/s. Parekh Net Work Solutions Pvt. Ltd.	04-36864
188.	M/s. Cyneta Networks (India) Pvt. Ltd.	04-39205
189.	M/s. Jalsagar Hotels Pvt. Ltd.	04-39461
190.	M/s. Devi Jayashri Procon Pvt. Ltd.	04-28181
191.	M/s. Kalpvin Warehousing Pvt. Ltd.	04-1611
192.	M/s. Khyati Land Development Pvt. Ltd.	04-15698

N. K. BHOLA
Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karnataka Agro Proteins Limited

Bangalore-560034, the 3rd February 2006

No. TA/SVK/560(3)/2005-2006/ROCB/2782.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Karnataka Agro Proteins Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhara Polymer Products Private Limited

Bangalore-560034, the 3rd February 2006

No. TA/SVK/560(3)/2005-2006/ROCB/7297.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhara Polymer Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balaji Fabricators Private Limited

Bangalore-560034, the 3rd February 2006

No. TA/SVK/560(3)/2005-2006/ROCB/8504.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Balaji Fabricators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Selvel Traders Private Limited

Bangalore-560034, the 3rd February 2006

No. TA/SVK/560(3)/2005-2006/ROCB/9283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Selvel Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intra Decor (Bangalore) Private Limited

Bangalore-560034, the 3rd February 2006

No. TA/SVK/560(3)/2005-2006/ROCB/13284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Intra Decor (Bangalore) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ernakulam-682021, the 8th February 2006

No. 560(3)/SM/777.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause

is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regd. No.	Company Name
1	2	3
1.	8662	M/s. Bin Malik Industrial and Trading Company (Kerala) Pvt. Ltd.
2.	8707	M/s. Eric Exports & Imports Pvt. Ltd.
3.	8716	M/s. New-Tech Farms Pvt. Ltd.
4.	9017	M/s. Highrange Cards and Travels Pvt. Ltd.
5.	9091	M/s. South Indian Capital Pvt. Ltd.
6.	9095	M/s. Trans World Holdings Pvt. Ltd.
7.	9170	M/s. Manathala Kuries and Loans Pvt. Ltd.
8.	9457	M/s. Sahara Hospital Pvt. Ltd.
9.	9575	M/s. G. S. S. Group Pvt. Ltd.
10.	9635	M/s. Pockanchery Ayurvedics Pvt. Ltd.
11.	9654	M/s. Omhar Exim Pvt. Ltd.
12.	9702	M/s. Lenora Chits and Finance Pvt. Ltd.
13.	9818	M/s. Provind Kuries and General Finance Pvt. Ltd.
14.	9885	M/s. J. B. S. Crumb Pvt. Ltd.
15.	9937	M/s. Autopark Pvt. Ltd.
16.	9981	M/s. Sahyasooraya Agro Farms Pvt. Ltd.
17.	10062	M/s. Munnar Gardens Pvt. Ltd.
18.	10091	M/s. MC Field Marketing and Research Pvt. Ltd.
19.	10176	M/s. Kaithari Karalkada and Investments Pvt. Ltd.
20.	10185	M/s. Sree Hari Kuries and Loans Pvt. Ltd.
21.	10294	M/s. Boon India Agro Products Ltd.
22.	10319	M/s. Chamathil Estates Pvt. Ltd.
23.	10327	M/s. Royal Kuries and Loans Pvt. Ltd.
24.	10328	M/s. Vijayas Goldart Pvt. Ltd.
25.	10333	M/s. Sudanraj Constructions Pvt. Ltd.
26.	10383	M/s. Fifi Trades Pvt. Ltd.
27.	10388	M/s. Highlanders Securities Pvt. Ltd.
28.	10394	M/s. Kshethra Financial Services Pvt. Ltd.

1	2	3
29.	10423	M/s. Uday Jyothi Chits and Finance (India) Pvt. Ltd.
30.	10459	M/s. Nirmalyam Kuries Pvt. Ltd.
31.	10477	M/s. Green Land Associates Pvt. Ltd.
32.	10481	M/s. Sreemuthappan Chits and Finance Company Pvt. Ltd.
33.	10519	M/s. Dhanwanthari Chikitsalaya and Health Resorts Pvt. Ltd.
34.	10542	M/s. Varaha Chit and Finance Company Pvt. Ltd.
35.	10553	M/s. Marva Trading Company Pvt. Ltd.
36.	10558	M/s. Easwari Papers Pvt. Ltd.
37.	10559	M/s. Prime Moulders Pvt. Ltd.
38.	10562	M/s. Astra Spices and Chemicals Pvt. Ltd.
39.	10570	M/s. Unnathi Chits and Finance Pvt. Ltd.
40.	10578	M/s. Sea Waves Finance and Hire Purchase Pvt. Ltd.
41.	10654	M/s. Dhanroop Chits and Finance Pvt. Ltd.
42.	10657	M/s. Sidhartha Kuries and Loans Pvt. Ltd.
43.	10670	M/s. Broadcast India Television Network Pvt. Ltd.
44.	10685	M/s. Sree Keerthanam Kuries and Loans Pvt. Ltd.
45.	10698	M/s. B. S. Techno Rubbers Pvt. Ltd.
46.	10719	M/s. Sree Padam Pvt. Ltd.
47.	10725	M/s. T and T Agro Trades Pvt. Ltd.
48.	10728	M/s. Goodfina Credits and Investments Pvt. Ltd.
49.	10736	M/s. Skyking Travels Pvt. Ltd.
50.	10748	M/s. Homarus Maritime Pvt. Ltd.
51.	10757	M/s. Sukumar Engineering Company Pvt. Ltd.
52.	10795	M/s. Elyon Marketing Pvt. Ltd.
53.	10813	M/s. Cam-Man's Colour Lab Pvt. Ltd.
54.	10849	M/s. Anil Advertising Agency Pvt. Ltd.
55.	10850	M/s. Subhadra Exports Imports Pvt. Ltd.
56.	10856	M/s. Acorn Trading Company Pvt. Ltd.
57.	10857	M/s. Mahamood and Mahamood Pvt. Ltd.
58.	10867	M/s. Ekadantha Kuries Pvt. Ltd.
59.	10893	M/s. Khatai Agro Foods Pvt. Ltd.

1	2	3
60. 10932	M/s. Travancore Minerals Pvt. Ltd.	
61. 11040	M/s. Eau-De-Vie Pvt. Ltd.	
62. 11042	M/s. Milestone Marketing Services Pvt. Ltd.	
63. 11052	M/s. Sivas No. 1 Trinity Beach Resorts Pvt. Ltd.	
64. 11116	M/s. Sun and Dew Hill Resorts Pvt. Ltd.	
65. 11119	M/s. Kanjana Chitties and Loans Pvt. Ltd.	
66. 11133	M/s. Chell India Pvt. Ltd.	
67. 11140	M/s. Beachland Products Pvt. Ltd.	
68. 11157	M/s. Devamangalam Finance and Kuries Pvt. Ltd.	
69. 11159	M/s. Dhananjaya Kuries and Loans Pvt. Ltd.	
70. 11164	M/s. Grace Granite and Mineral Water Company Pvt. Ltd.	
71. 11175	M/s. Brahma Latex Pvt. Ltd.	
72. 11185	M/s. Megha Milk Pvt. Ltd.	
73. 11186	M/s. Quasar Chits and Finance Pvt. Ltd.	
74. 11188	M/s. Fountain Data Forms Pvt. Ltd.	
75. 11192	M/s. Moolika Herbals Pvt. Ltd.	
76. 11201	M/s. Mc-Vin Construction Pvt. Ltd.	
77. 11218	M/s. Oriental Consultancy Service India Pvt. Ltd.	
78. 11236	M/s. Eagle Crafts Company Pvt. Ltd.	
79. 11253	M/s. Aesthetic Projects Pvt. Ltd.	
80. 11258	M/s. S. K. Cards Pvt. Ltd.	
81. 11261	M/s. National Publishing House Pvt. Ltd.	
82. 11263	M/s. First Line Communications Pvt. Ltd.	
83. 11268	M/s. DSJ Informatics Pvt. Ltd.	
84. 11286	M/s. Resort Developers Company Pvt. Ltd.	
85. 11287	M/s. Chovakaran Finance Company Pvt. Ltd.	

SANJAY SOOD
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ernakulam-682021, the 8th February 2006

No. 560(3)/SM/781.—Notice is hereby given pursuant

to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regd. No.	Company Name
1	2	3
1.	11291	M/s. I B C Comtec Pvt. Ltd.
2.	11334	M/s. Tradeways Exporting Company Pvt. Ltd.
3.	11359	M/s. Hertz Hire Purchase and Leasing Pvt. Ltd.
4.	11362	M/s. Baldamot Farm and Dairy Pvt. Ltd.
5.	11363	M/s. Pavaratty Kuries and Loans Pvt. Ltd.
6.	11367	M/s. Ambadi Farm Pvt. Ltd.
7.	11383	M/s. The Lord Films Pvt. Ltd.
8.	11397	M/s. Keram Ayurvedic Health Resorts Pvt. Ltd.
9.	11411	M/s. Chartered Tourism and Motels Pvt. Ltd.
10.	11455	M/s. Polytech Machineries Pvt. Ltd.
11.	11483	M/s. Rahmath Real Estates Pvt. Ltd.
12.	11491	M/s. Mural & Coatings Pvt. Ltd.
13.	11530	M/s. Lee and Alexander Enterprises Pvt. Ltd.
14.	11532	M/s. Frontier Estates Pvt. Ltd.
15.	11561	M/s. Madhavi Engicons Pvt. Ltd.
16.	11568	M/s. Dee Vee Estates and Developers Pvt. Ltd.
17.	11574	M/s. Venjay Trades & Services Pvt. Ltd.
18.	11579	M/s. Kakkassery Finance and Investment Company Pvt. Ltd.
19.	11586	M/s. Macfield Marketing Pvt. Ltd.
20.	11606	M/s. Gramalakshmi Chits and Loans Pvt. Ltd.
21.	11619	M/s. Pink and Goodwill Services Pvt. Ltd.
22.	11625	M/s. Vast Electronics Systems Pvt. Ltd.
23.	11636	M/s. O & C Systems & Projects Pvt. Ltd.
24.	11641	M/s. Maydale Exports Pvt. Ltd.
25.	11650	M/s. Mayuram Investments and Kuries Pvt. Ltd.
26.	11660	M/s. Vezhaparambil Enterprises Pvt. Ltd.

1	2	3
27. 11671	M/s. Safetech Industries Pvt. Ltd.	
28. 11677	M/s. Ansa Foods Pvt. Ltd.	
29. 11686	M/s. Harijan Grama Vyavasaya Ltd.	
30. 11698	M/s. Interconnect Travel and Tourism Pvt. Ltd.	
31. 11711	M/s. Amazon Granites Pvt. Ltd.	
32. 11725	M/s. Laxmidas Jewellers India Pvt. Ltd.	
33. 11753	M/s. Cochin Palmyra Recreation Centre Pvt. Ltd.	
34. 11760	M/s. Technocraft Steel Pvt. Ltd.	
35. 11776	M/s. Juno Boutique Pvt. Ltd.	
36. 11807	M/s. Saven Consultancy Services Pvt. Ltd.	
37. 11816	M/s. Uthradam Chits and Finance Pvt. Ltd.	
38. 11821	M/s. Alien Rubber Pvt. Ltd.	
39. 11852	M/s. Main Stream Cinema Pvt. Ltd.	
40. 11905	M/s. MTI Motors India Pvt. Ltd.	
41. 11947	M/s. Webskool Marketing Pvt. Ltd.	
42. 11950	M/s. Kuiluth Chitty Fund Pvt. Ltd.	
43. 11989	M/s. Mensa Management Consultants Pvt. Ltd.	
44. 11990	M/s. Jyothi Cattle Feeds Pvt. Ltd.	
45. 12004	M/s. Thayil Impex and Tours Pvt. Ltd.	
46. 12008	M/s. Pentagon Chits Pvt. Ltd.	
47. 12009	M/s. Chiyari Powertech Pvt. Ltd.	
48. 12012	M/s. Koncherry Eco Systems Pvt. Ltd.	
49. 12018	M/s. Anandam Chitty Fund Pvt. Ltd.	
50. 12025	M/s. Binbin Exports Pvt. Ltd.	
51. 12026	M/s. Guru Movie Makers Pvt. Ltd.	
52. 12032	M/s. Chaitanya Exports and Imports Pvt. Ltd.	
53. 12035	M/s. Cherai Kuries Pvt. Ltd.	
54. 12039	M/s. Sysin Softwares Pvt. Ltd.	
55. 12057	M/s. Sea Breeze Hotels Pvt. Ltd.	
56. 12077	M/s. Word Advertising Pvt. Ltd.	
57. 12078	M/s. Vismaya Marketing Pvt. Ltd.	
58. 12100	M/s. Malayalam Medical Mission Pvt. Ltd.	
59. 12106	M/s. Safety Water Proofing Pvt. Ltd.	

1	2	3
60. 12110	M/s. Chithraseema Films Pvt. Ltd.	
61. 12111	M/s. Pulithara Chitty Funds Pvt. Ltd.	
62. 12124	M/s. Thiruvonam Finance Pvt. Ltd.	
63. 12128	M/s. Greenoasis Environmental Engineering Pvt. Ltd.	
64. 12132	M/s. Pooram Chitty and Loans Pvt. Ltd.	
65. 12162	M/s. Syndicat Trade Links Pvt. Ltd.	
66. 12172	M/s. Winthrop Hotels Pvt. Ltd.	
67. 12179	M/s. Bee Gee Tours and Travels Pvt. Ltd.	
68. 12191	M/s. Coxswain Courier Pvt. Ltd.	
69. 12193	M/s. Valsalya Rajiv Raksha Athura Asritha Seva Pvt. Ltd.	
70. 12196	M/s. Homoeo Dealers Wholesale Depot Pvt. Ltd.	
71. 12224	M/s. The Water Side Inn Pvt. Ltd.	
72. 12227	M/s. Ammu Foods Pvt. Ltd.	
73. 12241	M/s. Panickers Agri Organics India Pvt. Ltd.	
74. 12247	M/s. Salih Granites Pvt. Ltd.	
75. 12248	M/s. Akash Interior and Exteriors Pvt. Ltd.	
76. 12250	M/s. Enpeeeyes Holdings and Investments Pvt. Ltd.	
77. 12254	M/s. Vallikkatt Elastomers Pvt. Ltd.	
78. 12273	M/s. Valakodu Tea Pvt. Ltd.	
79. 12285	M/s. Cedicom Capacitors and Components Pvt. Ltd.	
80. 12286	M/s. Instate Couriers and Cargoes Pvt. Ltd.	
81. 12301	M/s. Metal Systems and Utilities Pvt. Ltd.	
82. 12304	M/s. Sapthavarna Hotels Pvt. Ltd.	
83. 12324	M/s. Easwsari Power Mills Pvt. Ltd.	
84. 12347	M/s. Chaithram Kuries Pvt. Ltd.	
85. 12355	M/s. Cocoon Heritage Homes Pvt. Ltd.	

SANJAY SOOD
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956-and of
the following Companies

Ernakulam-682021, the 8th February 2006

No. 560(3)/SM/785.—Notice is hereby given pursuant
to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act,

1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regd. No.	Company Name
1	2	3
1.	12358	M/s. C. K. M. Food Products Pvt. Ltd.
2.	12374	M/s. Akai Creations Cinema Pvt. Ltd.
3.	12381	M/s. Superjac Chits Pvt. Ltd.
4.	12394	M/s. Nam's Network Pvt. Ltd.
5.	12399	M/s. Marcard Pvt. Ltd.
6.	12405	M/s. Bee Pont Marketing Pvt. Ltd.
7.	12413	M/s. Handicrafts Enterprises Pvt. Ltd.
8.	12415	M/s. Travancore Loteries and Marketing Service Ltd.
9.	12418	M/s. Integral Lubes and Polymers Pvt. Ltd.
10.	12420	M/s. Holiday Village Pvt. Ltd.
11.	12432	M/s. Topspot Villas Pvt. Ltd.
12.	12443	M/s. Chengal Chits Pvt. Ltd.
13.	12452	M/s. New Waves Ready Wears Pvt. Ltd.
14.	12454	M/s. Seven Star Plywood Pvt. Ltd.
15.	12468	M/s. King Veneers Pvt. Ltd.
16.	12470	M/s. Integrated Solar Systems India Pvt. Ltd.
17.	12506	M/s. Technology Aided SecurityKochi Pvt. Ltd.
18.	12520	M/s. Portable Systems Pvt. Ltd.
19.	12530	M/s. Savitar Cyber Consultants Pvt. Ltd.
20.	12531	M/s. Mythri Car Share Pvt. Ltd.
21.	12541	M/s. Monto Largo Electronics Pvt. Ltd.
22.	12543	M/s. Vellanikkara Kuries Pvt. Ltd.
23.	12562	M/s. S. G. Distilleries Pvt. Ltd.
24.	12568	M/s. Bismi Marine Exports Pvt. Ltd.
25.	12572	M/s. Holiday Builders Pvt. Ltd.
26.	12620	M/s. Newlook Kuries Pvt. Ltd.
27.	12654	M/s. Swaraj Securities Pvt. Ltd.
28.	12655	M/s. Raiment Exports Pvt. Ltd.
29.	12668	M/s. Best Medicare Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

1	2	3
30.	12695	M/s. Sailoserve Sales and Service Pvt. Ltd.
31.	12697	M/s. Goldberg Beverages Pvt. Ltd.
32.	12707	M/s. Pavizham Wonderland and Resorts Pvt. Ltd.
33.	12708	M/s. Symphony Furnitures Pvt. Ltd.
34.	12723	M/s. Skygrip Contractors Pvt. Ltd.
35.	12744	M/s. Akshaya Service Pvt. Ltd.
36.	12748	M/s. Mugal Kuries Pvt. Ltd.
37.	12752	M/s. Proxima Polymers Pvt. Ltd.
38.	12788	M/s. Hi-Com Software Pvt. Ltd.
39.	12815	M/s. Amrith Medicare Services Pvt. Ltd.
40.	12818	M/s. Siltech Technologies Pvt. Ltd.
41.	12840	M/s. Y. M's Lottery Services India Ltd.
42.	12884	M/s. Ark Clothing Company Pvt. Ltd.
43.	12890	M/s. Malayalee Construction Company Pvt. Ltd.
44.	12895	M/s. Amy-Ben Amusements Pvt. Ltd.
45.	12915	M/s. Thashreef Air Traffic Services Pvt. Ltd.
46.	12969	M/s. Cansat Network Systems and Technologies Pvt. Ltd.
47.	12976	M/s. Sree Muruga Timbers Pvt. Ltd.
48.	12987	M/s. Manilal Soaps and Cosmetics Pvt. Ltd.
49.	13012	M/s. Escadow India Trades Pvt. Ltd.
50.	13045	M/s. Koottil Roller Flour Mills Pvt. Ltd.
51.	13049	M/s. Gosri Exim Pvt. Ltd.
52.	13062	M/s. N. L. Exports Pvt. Ltd.
53.	13106	M/s. Surplus Services (India) Pvt. Ltd.
54.	13128	M/s. Kalliarra Estates Pvt. Ltd.
55.	13137	M/s. Rins Marketing Service Pvt. Ltd.
56.	13138	M/s. Pest Service India Pvt. Ltd.
57.	13151	M/s. Sujith Enterprises Pvt. Ltd.
58.	13190	M/s. Richierich Hotels and Resorts (India) Pvt. Ltd.
59.	13191	M/s. Nadeem Trading Pvt. Ltd.
60.	13219	M/s. Goodlook Communications Pvt. Ltd.
61.	13226	M/s. Sky Tex Trading (India) Pvt. Ltd.

1	2	3
62.	13229	M/s. Endamthuruthil Eravi Ayurveda Marma Vaidya Sala Pvt. Ltd.
63.	13260	M/s. Chicago Revolving Restaurants Pvt. Ltd.
64.	13282	M/s. Sagar Logistics Pvt. Ltd.
65.	13284	M/s. Our Own Trading Company Pvt. Ltd.
66.	13289	M/s. Instafreez Warehouses Ltd.
67.	13301	M/s. P. A. Mohammed Salim Contractors Pvt. Ltd.
68.	13306	M/s. Varsha Contractors Pvt. Ltd.
69.	13316	M/s. Malayazhma Resorts (India) Pvt. Ltd.
70.	13322	M/s. Salwa Marketing Pvt. Ltd.
71.	13323	M/s. J. M. C. Bricks Complex Pvt. Ltd.
72.	13336	M/s. Nedumangadu Rubber Trading Pvt. Ltd.
73.	13461	M/s. Shrivijay Hospital Research and Health Care Pvt. Ltd.
74.	13464	M/s. Akash Marine Pvt. Ltd.
75.	13471	M/s. Kunjanar Publications Pvt. Ltd.
76.	13474	M/s. Lotus (Novell) Computer System and Services Pvt. Ltd.
77.	13483	M/s. Sivasailam/Wire Nettings Pvt. Ltd.
78.	13526	M/s. Sunberry's Foods Pvt. Ltd.
79.	13530	M/s. Alleppey Gas Agencies Pvt. Ltd.
80.	13599	M/s. Soft Track It Solutions Pvt. Ltd.
81.	13622	M/s. K. B. Timber and Wood Works Pvt. Ltd.
82.	13631	M/s. People Tech Services Pvt. Ltd.
83.	13714	M/s. Millennium Media Vision Pvt. Ltd.
84.	13720	M/s. Absolute Secure Information Resources Technologies Pvt. Ltd.
85.	13766	M/s. Saab Hygienic Products Marketing Pvt. Ltd.

SANJAY SOOD
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ernakulam-682021, the 8th February 2006

No. 560(3)/SM/789.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regd. No.	Company Name
1	2	3
1.	13767	M/s. DIG Fuer Software Entwicklung Pvt. Ltd.
2.	13775	M/s. Kallaparambil Kuries Pvt. Ltd.
3.	13778	M/s. Z Trade Combines Pvt. Ltd.
4.	14144	M/s. Ideal Farms Pvt. Ltd.
5.	14166	M/s. ORB Nexus Merchandising Pvt. Ltd.
6.	14186	M/s. Mentor Hospital Equipments Pvt. Ltd.
7.	14208	M/s. Kalpaka Leasing Pvt. Ltd.
8.	14226	M/s. Orbit Condiments Pvt. Ltd.
9.	14238	M/s. Volga Polymers Pvt. Ltd.
10.	14250	M/s. Winni Glori Exports and Imports Pvt. Ltd.
11.	14260	M/s. Aravind Securities Pvt. Ltd.
12.	14272	M/s. Holsoft Systems Pvt. Ltd.
13.	14286	M/s. Gurudeva Residency Pvt. Ltd.
14.	14289	M/s. Konkothra Ayurvedic Pharmacy Pvt. Ltd.
15.	14309	M/s. Intellisense Solutions Pvt. Ltd.
16.	14325	M/s. Cool Aid Pvt. Ltd.
17.	14326	M/s. Spice Hotels Pvt. Ltd.
18.	14368	M/s. Project Solutions Pvt. Ltd.
19.	14370	M/s. Indecor Architects and Builders Pvt. Ltd.
20.	14434	M/s. San Ecomm Pvt. Ltd.

SANJAY SOOD
Asstt. Registrar of Companies
Kerala